


३७१

ॐ नमः शिवाय *

श्रीसामवेदसंहिता ॥

अर्थात्

श्रीसामामृतसिन्धुः ।



श्रीतद्विगमागमार्गवसैतुनिर्माता महर्षि १०८

श्रीलायणाचार्य-प्रणीतभाष्यच्छायाणुगामी

आर्यभाषा-प्रयात्सक अनुवाद का

तृतीय और चतुर्थ अध्याय ॥

जिसको—

अजमेर राजकीय पाठशाला के प्रधान संस्कृतप्रोफेसर
फकिरुल्ल खान शिपदत्त काव्यतीर्थ ने बनाया ।

और

श्रीमान् धर्मसूक्ति पर्याइतार, धीर, वीर, त्रिराघु रादवाहन

श्री १०८ श्री कृष्णपालसिंहजी महोदय अंशवांगड की

गार्थिक सहायता द्वारा प्रकाशित हुआ ।

संवत् १९७६


संवत् १९७६

दुत बाबू मथुराप्रसाद शिवहरे प्रबन्धकर्ता के प्रबन्ध से

वैदिक-चन्द्रालय, अजमेर में मुद्रित हुआ ॥

वैदिक ग्रन्थालय में छपने के कारण कोई सज्ज
इसका सम्बन्ध आर्यसमाज से न सम्भवे ।

शिवदत्त त्रिपाठी,



संकेत वेद-१५ सूचीपत्र सं. १ सं. १५८८	संकेत सूचीपत्र सं. सं.	संकेत सूचीपत्र सं. सं.
--	--	--

ॐ नमः शिवाय ॐ

अथ तृतीयाध्यायः प्रारभ्यते ।

तत्र प्रथमायां वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥

^{३ १ २} अभि स्त्वा शूर नोत्सुषो दुग्धा इव घनवः ।

^{१ २ ३ १ २ २ ३ २ १ २} ईक्षानस्य जगतः स्वष्टशाशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ २३३ ॥

अथ द्वितीयायाः भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} स्वामिद्धि इवामहे सातो वाजस्य कारवः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वा वृष्टेऽपिन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्टास्वर्वता ॥ २ ॥ २३४ ॥

अथ तृतीयस्याः पात्नखिल्प्या ऋषयः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अभि मघः सुरासमिन्द्रमघं यथा विदे ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} यो जरिवृष्यो मघवा पुरुवसुः सहस्रेणेव शिञ्जति ॥ ३ ॥ २३५ ॥

श्री शौर्यसंयुत इन्द्र ! यह चर औ अचर संसार है ।

उसके लक्ष्मीश्वर तथा सब विधि आपही द्रष्टार हैं ॥

धसतुम्हें दिनदुहि दुग्ध पूरित गाय की समता लिये ।

हम सोम-पूरित चमस द्वारा सीस पुनि २ नात हैं ॥ १ ॥ २३३ ॥

हे इन्द्र ! स्तौता हम तुम्हें ही अन्न हेतु बुलभावते ।

श्री सुजन पालक नर तुम्हें रिपु से डर बुलवाते ॥

पुनि अभ्रसन्मग्धी रणों में आपको हि पुकारते ।

अतएव हम सब भी हृष्टे तुम्हें ही बुलवाते हैं ॥ २ ॥ २३४ ॥

पश्चादि जानी शिञ्जति जो इन्द्रसंज्ञक देवता ।

श्री प्रशंसक हमें लोग तिन्ह मनु अन्नमिलत धन देवता ।

जिस भांति हम जानें उसी विधि सेति श्रियुत ऋत्विजोंकी ।

श्री सुधनसंयुत इन्द्र को अभिमुख सश्रद्धा पूजियो ॥ ३ ॥ २३५ ॥

अथ चतुर्थ्याः नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २}
तं वा दसममृतीपहं वसोर्धन्दानमन्धसः ।

^{३ २ ३ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २}
अभि वत्सं न स्वसरपु धेनव इन्द्रं गीर्भिवामहे ॥ ४ ॥ २३६ ॥

अथ पंचम्याः कलिः प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
तरोभिर्वो विश्वसुमिन्द्रं सवाध ऊतये ।

^{३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २}
बृहद्वायन्तः सुतलोषे अश्वरे हुवे भरन्नकारिणम् ॥ ५ ॥ २३७ ॥

अथ षष्ठ्याः वशिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
तरणिरितिसपासति वाजं पुरन्ध्या युजा ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ २ २ ३ १ २}
आ व इन्द्रं पुरुहूतं नक्षे गिरानेमि तष्टव सुद्रुवम् ॥ ६ ॥ २३८ ॥

अथ सप्तम्याः मेघातिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
पिवा सुतस्य रसिनो यत्स्वान इन्द्रं गामतः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
आपिनो बोधिसधमाद्ये वृषेऽऽमा अन्नन्तु ते धियः ॥ ७ ॥ २३९ ॥

ऋत्विगतथा यष्टाजनो ! जो दिव्य रिपु विनसावना ।

दुखों का नाशक तथा सोमान्न पी हर्पावना ॥

अस तुम्हारे पूजार्ह इन्द्रहिं गवें ज्यों गोशाल में ।

श्रिवत्स को लक्षि रांभती त्यों स्तोत्र से उसको नमें ॥ ४ ॥ २३६ ॥

हे ऋत्विजो ! द्रुत वाजियुत धन धान्य का दातार जो ।

उस इन्द्र को त्राणार्थ दुख में साम गाते पूजियो ॥

हम भी उसे श्री सोममख में इस प्रकार बुलावते ।

ज्यों पुष्टिप्रद हित कारि तातहिं आत्मजादि मनावते ॥ ५ ॥ २३७ ॥

श्री युद्ध में सत्वर पुरुष रखवारिणी वड़ि बुद्धि से ।

श्री भन्न की सम्पत्ति को अलिभांति से ही पात है ॥

सत्काष्ठ वाली चक्रपुष्टिहिं बढइ ज्यों भुकवावता ।

यष्टा ! तुम्हारे हेतु त्यों स्तुति सेति इन्द्रहिं गावता ॥ ६ ॥ २३८ ॥

हे इन्द्र ! रखयुत गव्य मिश्रित हमारे सोमहिं पिबो ।

पुनि पान करके भली विधि से आप तर्पित हूजियो ॥

श्री शीघ्रतोषक याग में धनप्रद हुये वान्धव वने ।

हमारे हितार्थ प्रबुद्ध हो तुव ज्ञान हमहिं उवारलें ॥ ७ ॥ २३९ ॥

अथाऽष्टम्याः भर्गो ऋषिः । इन्द्रो देवता बृहती छन्दः ।

^{२८} ^३ ^{१२} ^{३२३} ^३ ^{१२}
तदथं होहि वरुणे विद्रो भर्गं वसुक्षणे ।

^{१२} ^२ ^३ ^{१२२} ^३ ^२ ^३ ^{१२}
वद्वा हृषस्य षषवन् गदिष्ट्य उदिन्द्राश्च षिष्टये ॥ ८ ॥ २४० ॥

अथ नवम्याः वशिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१२} ^{२२} ^{३२} ^{३२} ^{२२} ^३ ^२
न हि वथरमं चन वसिष्ठः परिमथं सते ।

^३ ^१ ^{२३२} ^{३१२} ^{३२३} ^३ ^{१२} ^३ ^{१२}
अस्माकमथ षवतः सुते सचा विश्वे पितृभ्यु षाषिनः ॥ ९ ॥ २४१ ॥

अथ दशम्याः प्रगाथः काश्यप ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^१ ^{२३} ^{१२} ^{२२} ^३ ^१ ^२ ^३ ^{१२}
याचिदल्पद्विशां सत सखायां मा रिषण्यत ।

^२ ^३ ^१ ^२ ^{३१२} ^३ ^१ ^२ ^{३१२} ^{२२३} ^१ ^२
इन्द्रं मित्रतोता हृषयां सचा सुते हृष्टुवथा च शं सत ॥ १० ॥ २४२ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः तृतीय प्रवाठकस्य प्रथमार्धश्च समाप्तः ॥

हे इन्द्र ! तुम दानी अतः सोय विल देने जाइये ।

आफर पवित्राचरण मुझ को धन प्राप्ति-कराइये ॥

हे देव ! गोरुचिवन्त मैं हूं तिसे श्रीगोदान दो ।

औ अश्व चाहनवार मुझ को अश्वनामक यान दो ॥ ८ ॥ २४० ॥

श्रीमरुदेवगणों ! तुम्हारे मैं किसी भी छोट को ।

तज के वशिष्ठ न स्तुति करै अर्थात् सब को मानतो ॥

भव आज हम से सोमरस विधि के सहित वन जायगा ।

सोमाभिलाषी सब तिसे एकत्र हो पालेवना ॥ ९ ॥ २४१ ॥

हे मित्र स्तोताजनों ! इन्द्र कि गुणावलि विलराय के ।

किसि अन्य की स्तुति गावते मत क्षणित्ता को पाइये ॥

जब सोम-रस वन जाय तब श्री सिद्धदाता इन्द्र को ।

एकत्र हो गावो तथा पुनि पुनि उदेहिमनायलो ॥ १० ॥ २४२ ॥

प्रथम खण्ड समाप्तः ॥

अथ द्वितीयः खण्डः ।

—:०:—

सद्यः प्रथमायाः आंगिरस पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती ऋक् ॥

^{१ ३ १२ २२ २ २३ १२ ३ १२}
नीकष्टं कर्मणा नशाद्यश्चकार सदावृषम् ।

^{२ २ ३२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २२}
इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूत्तमृभवसमधृष्टं धृष्णु मोजसा ॥ १० ॥ २४३ ॥

अथ द्वितीयायाः मेधातिथिमेध्यातिथी वा ऋषी । इन्द्रो देवता । बृहती ०

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
च ऋते चिदभिन्निष्ठा पुरा जनुभ्य आतृदः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
सन्धाता सन्धि मघवा पुरुषमुन्निष्कर्ता विद्रुतं पुनः ॥ २ ॥ २४४ ॥

अथ तृतीयायाः पूर्वाक्ता ऋष्यादयः ॥

^{१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
आ त्वा सहस्रपाशतं युक्कारये हिरण्यये ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
मल्लयुजो हरय इन्द्र कशिना वहन्तु सोमपीतये ॥ ३ ॥ २४५ ॥

द्वितीय का आरम्भ ॥

श्री सदा बहने वार सब संसार से पूजा लहे । -

बहिमा सहित औ पराक्रम में किसी से भी नहीं दवे ॥

रिपु को हटावतहार ऐसे इन्द्र को यजमान जो ।

अख बश करे उसको न कोई दुखद कर्म सतावतो ॥ १ ॥ २४३ ॥

जो इन्द्र बन्धन वस्तु के बिचही हुए ग्रीवादि से

शोणित बहन से पूर्व जोड़ न योर्य वस्तुहिं जोड़े ।

श्रीधनाधीश्वर तथा नाचा विश्व को धारण करे ।

यह इन्द्र खण्डित हुए को भलिभाँति जोड़ सुधार दे ॥ २ ॥ २४४ ॥

हे इन्द्र ! सस्रुति हव्ययुत औ ग्रीव पर कच धारने ।

श्री स्वर्णनिर्मित दिव्य रथ के संग जे जुड़जावने ॥

अस बैकड़ों औ सहस्रों घोड़े तुम्हें संग में लिये ।

श्री सोमरस पीने हमारे यज्ञ के बिच लाइ हैं ॥ ३ ॥ ४५ ॥

अथ चतुर्थाः दिग्धामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।

आ पृथ्वीरिन्द्र हाराभेर्वाहि मयुरोमभिः ।

मा तदा केचिन्नियमुरिन्न पाशिनोऽपि धन्वेवता इहि ॥ ४ ॥ २४६ ॥

अथ पञ्चमाः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।

त्वमङ्ग मशथे सिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम् ।

न त्वदन्यो मघवन्नास्ति पडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ ५ ॥ २४७ ॥

अथ षष्ठ्याः नृमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।

त्वमिन्द्र यशा अस्युजीषा शवसस्पतिः ।

त्वं वृत्राणि इथस्य प्रतीन्येक इत्पूर्वनुत्तथर्षणी धृतिः ॥ ६ ॥ २४८ ॥

अथ सप्तम्याः मेध्यातिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।

इन्द्रमिदेवतातय इन्द्रं मयत्यध्वरे ।

इन्द्रथे समीके वनिनो इवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ७ ॥ २४९ ॥

हे इन्द्र ! सुखप्रद मोर-पंख समान घोड़ों को लिये ।

वर्षों मरुस्थल को पान्थ त्यों प्रतिबन्धकों को लाँघते ॥

वा पाश लीन्हे व्याध जैसे पक्षियों को रोकते ।

त्यों तुम्हें कोई न रोक सकि है यहां आप पधारिये ॥ ४ ॥ २४६ ॥

हे जितेन्द्रियवर इन्द्र ! तुम श्रीकान्ति को धरते हुए ।

निज विरुद-गायक मनुज की भलि भौंति स्तुतिहि उचारते ॥

हे धनिक देव ! तिहार सम सुखदाइ अन्य न दीखता ।

इस हेतु तेरे लिये ही स्तुतिरूप वचन उचारता ॥ ५ ॥ २४७ ॥

हे इन्द्र ! बलपालक तथा श्री सोमरस पीजावते ।

अस तुम विमल यश धारते श्री यशस्वी पद पावते ॥

अतिबली और अधृष्य ऐसे असुर के समुदाय जे ।

धिन कहे तुम यजमानरक्षक एकले तिन्ह मारते ॥ ६ ॥ २४८ ॥

श्री देवतोपक यज्ञ के निच इन्द्र को हि बुलावते ।

मरु विद्यमान रहै तभी हम इन्द्र को हि बुलावते ॥

क्रतु पूर्ति वा रणमाहिं अस्तुत इन्द्र को हि बुलावते ।

धन लाभ हित इन्द्रहिं बुलावै अतः इन्द्र ! पधारिये ॥ ७ ॥ २४९ ॥

अथाष्टम्याः ऋष्याद्याः पूर्ववत् ।

^{३ २ २} इमा उ त्वा पुरुवसो ^{३ १ २} गिरो वर्धन्तु ^{३ २२} या मम ।

^{३ १ २ ३ १ ३} पावकं वर्याः शुचयो विपश्चितः ^{३ २ ३ १ २} ऽभस्तोमैरनूपन ॥ ८ ॥ २५० ॥

अथ नवम्याः ऋष्याद्या उक्ताः ।

^{२ ३ १ २ २२ ३ २ ३ १ २} उदुत्ये मधुसत्तमा गिरः स्तोमास ईवते ।

^{३ १ २ ३ १ २ २२ ३ २ ३ १ २} सत्राजितो धनसा अक्षितोत्तपो वाजयन्तो रथा इव ॥ ९ ॥ २५१ ॥

अथ दशम्याः मेधातिथिः कारव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २} यथा गौरी अपाकृतं तृणन्नैत्यवेरिणम् ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} आपित्वेनः प्रपित्वे तूष्मागहि कण्वेषु सुसचा पिव ॥ १० ॥ २५२ ॥

इति द्वितीयः खण्डः ।

हे बहुत धनयुत इन्द्र ! ये मुझ से कथित स्तोत्रावलि हैं ।

वे सभी स्तुतिमय वाणियाँ तुम को बढ़ावति ही रहें ॥

श्री अग्नितुल्य प्रकाश-राशि पवित्रता को धारते ।

श्री ज्ञानिस्तोता पद्यमाला से बहुत गननावते ॥ ८ ॥ २५० ॥

संतत रिपुन को जीतते अति धनों को धारण करें ।

क्षयरहित रक्षायुक्त ऐसे अन्न की इच्छा धरें ।

ज्यों रथ हृधर से उधर जावें त्यों प्रसिद्धि समेत वे ।

अतिमिष्ट उत्तम स्तोत्र भी तुव गीत ऊपर फैलते ॥ ९ ॥ २५१ ॥

ज्यों पिपासाकुल गौर मृग श्रीजलों से पूरित हुए ।

तृण से रहित कासार पर अभिमुख हुए ज्यों जात हैं ॥

त्यों बन्धुता होजान पर हे इन्द्र ! हम पै आवना ।

सत्वर हकट्टे सोम को भलि भांति से पी जावना ॥ १० ॥ २५२ ॥

द्वितीय खण्ड समाप्त ।

अथ तृतीयः खण्डः ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

तत्र प्रथमायाः भर्ग ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।

^{३ २३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
शग्ध्युरेषु शचीपते इन्द्र विश्वाधिरूतिभिः ।

^{३ १ २ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
भगं नहि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चशमसि ॥ १ ॥ २५३ ॥

अथ द्वितीयायाः रेभः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ क २२ ३ १ २}
या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा-असुरेभ्यः ।

^{३ ५ ३ १ २ ३ २ ३ २ २ १ २}
स्तोतारमिन्द्रघवन्नस्य वर्धय ष च त्वे वृक्तवर्हिषः ॥ २ ॥ २५४ ॥

अथ तृतीयायाः जमदाग्निऋषिः । आदित्या देवताः । वृहती छन्दः ।

^{२ ३ २ ३ २ ३ १ २ क २२}
म मित्राय प्रार्यशो सचथ्यमृता वसो ।

^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २}
वरुथ्येदे वरुण छन्धं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥ ३ ॥ २५५ ॥

तृतीयारंभ ।

श्री शचीपति ! पराक्रमयुत इन्द्रसंज्ञक देवता ! ।

सम्पूर्ण रक्षाओं सहित अभिलषित वर दे देवता ॥

औ हमारे जो भाग्य उन के सरिस कीर्ति धरावते ।

धन दान करने वार तुम को मैं विशेष मनावता ॥ १ ॥ २५३ ॥

हे इन्द्र ! श्रीस्वर्गस्थ तुमने जिन्ह सुभोग्य धनादि को ।

बलवन्त-राक्षस-वर्ग को विध्वस्त कर तिन्ह से जियो ॥

अतएव धनपति देव ! उद्य से भक्त को ही पालना ।

औ यज्ञकर्त्ता कुशासन तोय दे तिन्हें भि बड़ापना ॥ २ ॥ २५४ ॥

हे यज्ञधन यजमान ! श्रीयुत मित्र दैवत के लिये ।

सेवाहै मखशालीय ऐसे विरुद युत पद गाइये ।

श्री अर्यमा अरु वरुण यज्ञस्थली के विच राजते ।

तब उन्हीं के प्रीत्यर्थ उत्तम स्तोत्र-पद्य उचारिये ॥ ३ ॥ २५५ ॥

अथ चतुर्थ्याः मेधातिथिऋषिः । । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र त्तोमेभि रायवः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ १ २ ३ २}
सषीचीनास ऋभवः समस्वरन् रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम् ॥ ४ ॥ २५६ ॥

अथ पंचम्याः नृमेध पुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
अथ इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्माऽवत ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रण शनपर्वणा ॥ ५ ॥ २५७ ॥

अथ षष्ठ्याः ऋष्याद्याः पूर्ववत् ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम् ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
येन ज्योतिरजनपन्नृशवृशदेवं देवाय जागृवि ॥ ६ ॥ २५८ ॥

अथ सप्तम्याः षष्ठिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ ३ १ २}
इन्द्रं क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
शिक्षाणो आस्मन्पुरुहून् यामनिर्जोव ज्योतिरशीसहि ॥ ७ ॥ २५९ ॥

हे इन्द्र ! स्तोता मनुज पहले सोमरस पीने लिये ।

नानास्त्वो से तुम्हारी विरुदावली को गावते ॥

सम्मिलित सब ने भली विधि से आपूँके गुण गालिये ।

औ रुद्रसुत श्रीमरुद्गणने आद्यतोहि मनालिये ॥ ४ ॥ २५६ ॥

स्तोताजनो ! पूजाई तुम्हारे इन्द्रसंज्ञक देव को ।

श्री सामरूपी स्तोत्र गा भलिभाँति सेति उच रियो ॥

तव पापनाशक इन्द्र श्रीशत धारवाले वज्र से ।

वृत्राख्य राक्षस तथा पापसमूह को क्लिंसाइ है ॥ ५ ॥ २५७ ॥

हे स्वल्पवक्ता ऋत्विजो ! अत्यन्त पाप नसावना ।

श्री बृहत्साम स्तोत्र को इन्द्रार्थ विधियुत गावना ॥

श्री सत्यवर्द्धक देव वा ऋषि ने सुरेश्वर के लिये ।

श्री दिव्य जागति ज्योति रवि को साम से प्रकटित किये ॥ ६ ॥ २५८ ॥

हे इन्द्र ! हम को कर्म किंवा ज्ञान वितरण कीजिये ।

ज्यो पिता पुत्र हिं देत धन त्यों धनोपाय सिखाइये ॥

हे अनेकों के पाहुने ! इन्द्राभिधानी देवतै !

श्री यज्ञ में हम जीव प्रति दिन सूर्य को पालेइ हैं ॥ ७ ॥ २५९ ॥

(८६)

अथाऽष्टम्या रेभन्वृषिः । इन्द्रो देवता बृहती छन्दः ।

१ २ ३ ४ २ ३ १ २ ३ १ २
मान इन्द्र परावृणम्भवा नः सधदाद्ये ।
१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्य दा न इन्द्र परावृणम्भ ॥ ८ ॥ २६० ॥

अथ नवम्याः सैधातिथिर्हृदिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
अथ घ त्वा सुतावन्त आपा न वृल्लवर्हिपः ।
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन् परिस्तोतार आसते ॥ ९ ॥ २६१ ॥

अथ दशम्याः भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
पदिन्द्र नाहृषीष्वा अोजो नृम्यं च कृष्टिषु ।
३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ १ २ २ ३ १ २
यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमाभर सत्रा विश्वानि पौंथस्या ॥ १० ॥ २६२ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।

हे इन्द्र ! हविदातार जो हम तिन्हें मत तज दीजियो ।
आनन्दप्रद हमराजु भस्त्र तहें सोमहेतु पधारियो ॥
हे देव ! हमको तुम्हीं रक्षणमध्य स्थापित राखियो ।
सुमही हमारे बन्धु इमले हमें कभि मत त्यागियो ॥ ८ ॥ २६० ॥

हे इन्द्र ! निश्चय हम तुम्हें श्री सोम सम्पादन किये ।
श्री जलों के सम नम्रता को धारते पाते रहें ॥
पावित्र्ययुक्त रस निकलने पै कुशास्तीर्ण विछावते ।
श्री स्तोत्रगाता भी तुम्हारी विरुदमाला गावते ॥ ९ ॥ २६१ ॥

हे इन्द्र ! मानव सृष्टि में बल और धन सम्पत्ति है ।
औ निपादान्तजु पांच वर्यों की शुभाज्र समृद्धि है ॥
हे देव ! वह सब ही हमारे वृन्द को दिलवाइये ।
औ सर्व विधि के महाबल भी हमें आप दिराइये ॥ १० ॥ २६२ ॥

तृतीयाध्याय का तृतीयखण्ड समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्थः खण्डः ।

—:०:—

तत्र प्रथमायाः मेधातिथिऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

३ २ ३ १२ २२ ३ १ २ २ ३ २
सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्नोविता ।

क २१ ३१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
वृषा ह्युग्र शृण्वेषे परावात्तं वृषो अर्वावति श्रुतः ॥ १ ॥ २६३ ॥

अथ द्वितीयायाः रेभऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
यच्छक्रसि परावति यदर्वावति वृत्रहन् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
अतस्त्वा गीर्भिद्युगश्चिन्द्र केशिभिः सुतावा आविवासति ॥ २ ॥ २६४ ॥

अथ तृतीयायाः वत्सऋषिः । इन्द्रो देवता । पिपीलिक मध्या

बृहती छन्दः ।

३ १ २ ४ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
अभि वो वीरमन्धसो बदेषु गाय गिरा महाविचेतसम् ।

२ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
इन्द्रं नाम श्रुत्यथै शाकिनं वचो यथा ॥ ३ ॥ २६५ ॥

अथ दशम खण्डः ।

हे इन्द्र उग्रप्रताप ! सच यों वांछितार्थ दिलात हो ।

श्री सोमसिंचक वर्ग से आहूत हमहिं बचात हो ।

तुम सुने जाते वरद पुनि दूरभि वरहिं वरसावते ।

औ पास भी वांछित फज्रप्रद श्रवण में तुम आवते ॥ १ ॥ २६३ ॥

हे इन्द्र ! जब दूरस्थ श्री दिवलोक में तुम स्थिति लहो ।

औ निकटवर्ती गगन में जब देव ! तुम बसती करो ।

इस लोक से श्री शक्र ! द्युतिप्रद केशि घोड़े से टिके ।

स्तुति से तुम्हें श्री सोमयुत यजमान मख मैं बुलात हँ ॥ २ ॥ २६४ ॥

हे याज्ञिको ! जो वीर, रिपुजेता, विवेकहिं धारता ।

सर्वत्र स्तुति के योग्य बलसम्पन्न इन्द्र सुदेवता ।

उसको तुम्हारे लिये श्री सोमाभिषव के समय में ।

श्री स्तोत्र से वाणी तुम्हारे प्रवृत्त हो तसगाइये ॥ ३ ॥ २६५ ॥

अथ चतुर्थ्याः भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
इन्द्रं त्रिधातु शरणं त्रिवरुषथं स्वस्तये ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
वर्द्धिर्यन्त्रं मघवद्भूषश्च मह्यं च पावया दिद्युमेभ्यः ॥ ४ ॥ २६६ ॥

अथ पंचम्याः नृमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ २ २}
श्रायन्त इव सूर्यं विश्वदिन्द्रस्य भक्तत ।

^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रतिभागं न दीधिमा ॥ ५ ॥ २६७ ॥

अथ षष्ठ्याः पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २}
न सोमदेव आपतादेष दीर्घायो वर्त्यः ।

^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
एतन्नाचिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥ ६ ॥ २६८ ॥

हे इन्द्र ! तिखूखण्डे तथा जल शीत आतप-वारणे ।

छाये घरों को स्वस्तिहित यजमान औ मोहि दीजिये ॥

इनके निकट से शत्रुपेरित दीप्त आयुधवर्ग जे ।

उनको हमारी मण्डली से अलग तुम कर दीजिये ॥ ४ ॥ २६६ ॥

हे बान्धवो ! आश्रित किरण ज्यों सूर्य का सेवन करें ।

त्यों इन्द्र के सब धनों को तुम भली विधि से सेइये ॥

वह देवता जिन धनों की उत्पत्ति के हो जान पै ।

बल से करत पितु दाय सम उनधनों को हम धारलें ॥ ५ ॥ २६७ ॥

चिरंजीव हे इन्द्र !-वहै नर इन्द्रभक्ति विन्त ।

उस प्रसिद्धि-युत अन्नराशि को प्राप्त न होवत ॥

जो मनुष्य इस इन्द्र देव के तुव-अभिमत धरल ।

जान हेतु नाना रज्जों के घोटक धारत ॥

जो घोड़ों को जोड़ता हरिताश्वों को रेंके विषे ॥

वेसे को जो नहिं भजै वह उसको नहिं पात है ॥ ६ ॥ २६८ ॥

अथ सप्तम्याः नृनेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ ३ १ २}
आनो विश्वासु इव्यगिन्द्रं समत्सु भूषत ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन् परमज्या ऋचीषम् ॥ ७ ॥ २६६ ॥

अथाऽष्टम्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥

^{१ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
तवेदिन्द्राऽवर्षं वसु त्वं पुण्यसि मध्यमम् ।

^{३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसिन्धुकिष्ठा गोषु वृण्वते ॥ ८ ॥ २७० ॥

अथ नवम्याः मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता ।

बृहती छन्दः ॥

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २}
केयथ केदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २}
अत्तर्षि युधम खजकुत् पुरन्दर मगायत्रा अगासिषुः ॥ ६ ॥ २७१ ॥

स्तोताजनो ! सब रणों में रक्षार्थ सुरहिं पुकारते ।

उस इन्द्र की हमारे सुमुख में स्तोत्र द्वारा पूजिये ॥

हे पापनाशक ! युद्ध में अक्षय प्रत्यंचा धारने ।

स्तुत्यहं सुर ! तीनों सवन में स्तवों को भूषित करें ॥ ७ ॥ २६९ ॥

हे इन्द्र ! त्रपुसीसादि नीचो धातु धन है रात्रो ।

तुम रजत कांचन प्रभृति मध्यम वित्त को पोषण करो ॥

श्री रत्न आदिक श्रेष्ठधन के सत्य तुम अधिराज हो ।

गो आदि धन के षान में नहि कोई तुमको रोकतो ॥ ८ ॥ २७० ॥

हे इन्द्र ! पहले थे कहां ! औ इस समय किस ठौर हो ।

औ अनेकों के मध्य में श्री वित्त तुमरो जावतो ॥

हे युद्धकोविद ! रणरचयिता ! असुरनाशक ! आइये ।

अंगान्पदु स्तोता हमारे स्तोत्र आदि बखानते ॥ ९ ॥ २७१ ॥

अथ दशम्याः कालऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
सपत्न्यामिदा ह्यो पीपेपेहो बज्रिणम् ।
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
तस्मात् स्रज्ज सवने सुतं भरा नूनं भूपत श्रुते ॥ १० ॥ २७२ ॥
इति चतुर्थः खण्डः ॥

अथ पंचमः खण्डः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

तत्र प्रथमाया प्ररुहन्माऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।
१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
यो राजा चर्षणीनां याता रथगिरिध्रिगुः ।
१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
विश्वसां तस्मात् पृनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृण ॥ १ ॥ २७३ ॥
अथ द्वितीयायाः- भर्गऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।
१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।
१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
सयवञ्जग्बि तव तं न ऊनये विद्विषो विमृशो जहि ॥ २ ॥ २७४ ॥

यजमान हम इस वज्रधारी इन्द्रसंज्ञक देव को ।
इस समय कलवा इन दिनों में सोमवर्षित कर चुके ॥
अतएव ही इस सवन में श्री सोम को धारण करो ।
और सभी स्तुति के सुनन पर शोभा-समेत वनायदो ॥ १० ॥ २७२ ॥
चतुर्थ खण्ड समाप्त ।

पंचम का आरम्भ ।

जो इन्द्रदेव समस्त मानव-जाति का अधिराज है ।
श्री रथों से यात्रा करत गन्ता न तस्मै कोह है ॥
सब सैन्य का प्रातार और जो पापपुंज नसावता ।
सब सर्व श्रेष्ठ सुरेश को भलि भांति सेति मनावता ॥ १ ॥ २७३ ॥
हे इन्द्र ! जिस हिंसानिरत से हम सभी भययुत रहें ।
तिससे भय दो हमें तुम भयनाशकृत् बल राखते ।
और तुम्हारी रक्षार्थ शत्रुसमूह को विनसावता ॥
पुनि हमारे हिंसक बलों का नाश करके बालता ॥ २ ॥ २७४ ॥

अथ तृतीयायाः हरिमिथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ १२ २२ ३ १ २}
वास्तोष्पने ध्रुवा स्थूणां सत्रं सोम्यानाम् ।

^{३ २ ३ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
द्रुमः पुरां यत्ता शश्वतीनापिन्द्रा मुनीनां सखा ॥ ३ ॥ २७५ ॥

अथ चतुर्थ्याः जमदाग्निर्ऋषिः । सूर्यो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
वयमहा असि सूर्य वडादित्य महा असि ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २}
षहस्ते सतो महिमा पनिष्टममहादेव महा असि ॥ ४ ॥ २७६ ॥

अथ पंचम्याः मेधातिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
अश्वी रथी सुरूप इद्रोमां यदिन्द्र ते सखा ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २}
श्वान्न भान्ना वयसा सचते सदा चन्दैर्याति सभामुप ॥ ५ ॥ २७७ ॥

अथ षष्ठ्याः पुरुहन्मात्ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २}
यद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमांस्तस्युः ।

^{१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
न त्वा पञ्चितसहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ ६ ॥ २७८ ॥

गृहनाथ ! घर का थंभ निश्चित भाव सेती स्थिर रहो ।

श्री सोमसंपादक हमें कंधादितनुवल दीजियो ॥

श्री सोमपाञ्चगणित असुरक्षयकारि इन्द्र सुदेवता ।

हम मुनिजनों के वर्ग का प्यारा सखा वनजावना ॥ ३ ॥ २७५ ॥

श्री सूर्य ! तुम अतितेजयुत हो यह सच्ची बात है ।

आदित्य ! तुम वज्र से बड़े यह बात पूरी साँच है ॥

श्री महा महिमायुक्त तुव स्तुति स्तोतृवृन्द बखानता ।

हे सूर्यनारायण ! पराक्रम से भि तू सब से बड़ा ॥ ४ ॥ २७६ ॥

हे इन्द्र ! जब तेरा सखा कोई पुरुष होजावता ।

तब अवाशि अश्वी रथी सुन्दर गोधनी वह होवता ॥

पुनि शीघ्र पाने योग्य धन व अन्नयुत नित सोहता ।

औ तुष्टिप्रद स्तुतियुक्त हो परिषदादिक बिचजावता ॥ ५ ॥ २७७ ॥

हे इन्द्र ! जो दिवलोक शत हो वोभि तोयन पावते ।

औ सैकड़ों भूलाकभी समता न तोरि धरावते ॥

हे वज्रधारी ! सहस्रों रवि तुझे नाहि दिपावते ।

वत्पन्न वस्तु थरागगन कोइछे न तेरा पसकै ॥ ६ ॥ २७८ ॥

अथ उप्तस्याः देवातिथिः ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

१ २ ३ २२ ३ २६ २२ ३२३ १ २
यदिन्द्र प्रागपागुदङ् न्यग्वा ह्यसे नृभिः ।

१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३१ २ ३ १ २
क्षिया पूरु नृपूतो अस्मानवेऽसि मशर्ध तुर्वशे ॥ ७ ॥ २७६ ॥

अथाऽष्टम्या वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

१२ २२ ३ १२ २२
कस्त मिन्द्र तथा वसवामत्या दधर्षति ।

३ १२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १२ २२
श्रद्धा हि ते मघवनृपाय दिवि वाजी वाजथसिपासति ॥ ८ ॥ २८० ॥

अथ नवम्याः भरद्वाजऋषिः । इन्द्राग्रो देवते । बृहती छन्दः ।

१ २ ३ २ ३१ २ २ ३ १ २
इन्द्र ग्री अपादियं पूर्वागात्पद्वतीभ्यः ।

३ १२ २ ३ २ ३ १ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
हित्वा शिरो जिह्वा रारपचरत् त्रिंशत्पदा न्यक्रपीत् ॥ ९ ॥ २८१ ॥

अथ दशम्याः बालखिल्यो ऋषयः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
आशन्तमशन्त माभिरभिष्टिभिरास्वापे स्वापिभिः ॥ १० ॥ २८२ ॥

इति पंचम खण्डः ॥

हे इन्द्र ! जो प्राची प्रतीची उत्तरा नीची दिशा ।

वनमें रहत स्तोता मनुज से पावते तुम नेवता ॥

हे श्रेष्ठ ! तोभी आप "आनव" में बहुत जनस्तुत हुए ।

औ परन्तप ! तुर्वश-विषे स्तुति से बुलाये जावते ॥ ७ ॥ २७९ ॥

हे इन्द्र व्यापक देव ! तिनह विरुगाति-संयुत आपकी ।

अस कौनसा है पुरुष जो बलको दिख्ता धमकावतो ॥

हे देव ! तेरे हेतु जो श्रद्धासहित हवि देवता ।

वह सोम संपादन दिवस में हव्य देना चाहता ॥ ८ ॥ २८० ॥

हे इन्द्र ! औ हे अग्नि ! यह श्री उषा चरण-विहीन ही ।

श्री चरणवाली प्रजाओं से प्रथम ही आती रही ।

पुनि प्राणियों के सीस ताजि श्री जीभ से उच्चारती ।

व्यवहरति तीस मुहूर्च में दिनरात को उछांघती ॥ ९ ॥ २८१ ॥

हे इन्द्र ! बहुत समीप हमरी यज्ञशाला के विषे ।

परिमिति-सहित श्री बुद्धि रक्षा सहित निश्रय आइये ।

श्री परमसुख ! आनन्द देनी प्राप्ति युक्त पधारिये ।

हे बन्धु ! मंगलदायिनी सत्प्राप्ति उसको लाइये ॥ १० ॥ २८२ ॥

पांचवां खण्ड समाप्त ॥

अथ षष्ठः खण्डः ।

—:०:—

तत्र प्रथमायाः नृमेधऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३२ ३१ २ ३१२ ३१ २३ १२}
इत ऊती वो अजरं महतार मप्रहितम् ।

^{३१२ २२३ १२ ३१२३१२ ३ १२}
आशु जेतारं होतारं रथीतमधतूते तुग्रिया वृषम् ॥ १ ॥ २८३ ॥

अथ द्वितीयाया वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१२ २२ ३१२ ३ २२ ३ १२ २२}
मोषु त्वावाघतश्च नारि अस्मान्निर्गमन् ।

^{३१ २ ३ १२ ३ १ २ ३ २ ३ १२२२}
आरात्ताद्वा सधमादं न अ गहीह वा सञ्जुप श्रुधि ॥ २ ॥ २८४ ॥

अथ तृतीयायाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
सुनोत सोमप त्ने सोमिन्द्राय वज्रिणे ।

^{१ २ ३ १२ २२ ३ २२ ३१२ २२ ३१२ २२}
पचता पक्वीरवसे कृणुध्वमित् पृणन्तिपृणत मयः ॥ ३ ॥ २८५ ॥

अथ छठा खण्ड आरम्भ ।

हे मन्धवों ! जो अजर, विपुत्रेरक प्रहित नहीं होवता ।

दृतगति अभिन्नहिं जीतता, औ यज्ञ के बिच आवता ।

श्री रथीवर दुर्वन्ध जल की वृद्धि को करता रहे ।

अस इन्द्र को रक्षार्थ तुम भलि भांति से आगे करें ॥ १ ॥ २८३ ॥

हे इन्द्र ! श्री यजमान भी कोई दूसरा इस याग से ।

तुमको बहुत ही दूर पै न कदापि कहींभि रसायले ॥

इस हेतु तुम दूरस्थ भी हमरे सुमख में आइमे ।

वा यहां रहते हुए भी स्तुति हमारी सुन जाइये ॥ २ ॥ २८४ ॥

मेरे मनुष्यों ! इन्द्र जो श्री वजू आयुध धारता ।

श्री सोमरस पीता अतः श्री सोमरस प्रकटावना ।

पुनि इन्द्र के प्रीत्यर्थ हव्य बनाय सुख उपजावना ।

वह याज्ञिकों को हर्ष देता हव्य को ले जावता ॥ ३ ॥ २८५ ॥

अथ चतुर्थ्याः भरुजाजक्रुषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।
^{१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २}
 यः सत्रादा विचर्षणिरिन्द्रं त हूमहे प्रथम् ।
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}
 सहस्रमन्यो तु दिनृमण सत्पते भवा समन्तु नोवृथे ॥ ४ ॥ २८६ ॥
 अथ पंचम्याः परुच्छेष ऋषिः । अश्विनौ देवते । बृहती छन्दः ॥
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}
 शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्तं दिशस्पतम् ।
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २}
 मा वाऽऽ रातिरुपदसत् कदाचनास्पद्रातिः कदाचन ॥ ५ ॥ २८७ ॥
 अथ षष्ठ्याः वामदेव ऋषिः । वैजयो देवता । बृहती छन्दः ॥
^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
 यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्यैः ।
^{१ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २}
 श्वादि द्वन्द्वेन वरुणं विषा गिरा धर्तारं धित्रतानाम् ॥ ६ ॥ २८८ ॥
 अथ सप्तम्याः मेघ्यातिथिः ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥
^{३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
 पाहि गा अन्धस्ता मद इन्द्राय मेघ्यातिथे ।
^{१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
 या संमिश्रा एयोर्यो हिरण्यय इन्द्रो वर्जो हिरण्ययः ॥ ७ ॥ २८९ ॥

जो इन्द्र रिपु का वध करे सब वृत्त विधियुक्त लखत है ।
 उसको प्रशंसायुक्त पद-समुदाय सेति बुलात है ।
 हे दशशतावधि क्रोधयुत ! बहुधन ! सुजनगण पालने ।
 नाना समर में हमारे अभ्युदय-कारक हूजिये ॥ ४ ॥ २८६ ॥
 हे हमारे शुभकर्म को धनगिनन वाले देवता !
 अश्विनिकुमारों ! सुकृति से दिन रात सत्फल देवना ।
 श्री दान तुमरा तथा हमरा कभी क्षीण न होरहै ।
 अर्थात् तुम सब सिद्धि दो हम हव्य तुमको देइ हैं ॥ ५ ॥ २८७ ॥
 जय कभी हविदातार जन के यज्ञ के हित के लिये ।
 स्तुति करनहारा मनुज श्री विरुदावली को उचरै ।
 तब पाप का हर्ता अनेक सुकर्म को धारण करै ।
 अस वरुण को रक्षा-विधायक स्तोत्र सेति मनायलै ॥ ६ ॥ २८८ ॥
 हे इन्द्र ! मख के बीच में श्री अतिथिरूप धरावने ।
 पीये सुरस से तुष्ट हो हमरी गवें बचवाइये ।
 जो हरित घोड़े जोड़ता औ वज्र को धारण करै ।
 हितकारि औ रंगशीय कांचनगय सुरथ सम्पन्न है ॥ ७ ॥ २८९ ॥

अथाऽष्टम्याः भर्गश्चरिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
समयश्च मृणालश्च न इन्द्रो अर्वाण्डि वचः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
सप्राच्या मधवान्तलासपीतये धिया शर्विष्ठ आगमत् ॥ ८ ॥ २६० ॥

अथ नक्षत्राः संधातिथिमध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता ।
बृहती छन्दः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
यहे च न त्वाद्विवः परा शुक्लाय दीयसे ।

२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
न सहस्राय नायुताय वज्रिणा न शताय शतामघ ॥ ९ ॥ २९१ ॥

श्री स्तोत्र अरु श्री शस्त्र अस जो द्विधा वाक्यसमूह हैं ।

श्रीयुक्त इन्द्र प्रसन्न हो हम गाँय तिन्ह सुन लेइ है ।

पुनि यज्ञ पूजनि बुद्धि से युत धनी अरु बल धारता ।

श्रीयुत सुरेश्वर देव सोमहिं पीवने आजावना ॥ ८ ॥ २६० ॥

* हे वज्रधारी ! मैं तुम्हें अतिमूल्य पै भि न बेचता ।

हे वज्रहस्त ! सहस्र औ दश सहस्र पै नहिं बेचता ।

हे अधिक धनयुत इन्द्र ! अगणित वित्त में भि न बेचता ।

सारांश यह इत्यादि से पूजन तिहार न छोड़ता ॥ ९ ॥ २९१ ॥

* इस मन्त्र से यह उपदेश मिलता है कि परमेश्वर की भक्ति को कदापि नहीं छोड़ना चाहिये और इसी आशय के अनुसार कवियों ने भी कहा है कि “कीर्त्यक्त्वा हरिं भजेत्” अर्थात् करोड़ काम छोड़कर भी परमात्मा की उपासन करनी चाहिये । इसी अभिप्राय से बहुत से महानुभावों ने अपने प्राण तक तज दिए हैं पर धर्म नहीं छोड़ा है । और मिथ्या साक्षी वा शपथ भी धर्म को छोड़ कर भी नहीं खानी चाहिये इत्यादि कई बातों के सदुपदेश इससे मिलते हैं ।

अथ दशम्याः ऋष्यादयः पूर्ववत् ।

१ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३
दम्पा इन्द्रादि मे पितृवन् आतुरमुञ्जतः ।
३ ५ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २
माया च सं जदयष्टः समावसो दनुत्यनाप राएसे ॥ १० ॥ २१२ ॥

इति षष्ठः खण्डः ।

अथ सप्तमः खण्डः ।

—:०:—

तत्र प्रथमायाः घासिष्ठऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
इम मिन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः ।
१ २ ३ ३ १ २ ३ ३ ३ २
ता नामदाय वज्रहस्त पीतय हरिभ्यां याज्ञाक आ ॥ १ ॥ १९३ ॥

हे इन्द्र ! तूम मेरे पिता से भी अधिक धनवन्त हो ।
औ जपालक मम भाइ से भी बहुत ही सम्पन्न हो ॥
हे व्यास ! मेरी मा तथा तूम तुल्यता को धारते ।
मी धनी औ अन्नार्थ मुझको प्रतिष्ठित कर दीजिये ॥ १० ॥ ३६२ ॥

षष्ठ खण्डः समाप्त ।

अथ सप्तमः खण्डः ।

—:०:—

हे वज्रधारी ! सोम ये भलिभांति सम्पादित हुए ।
मी वधि मिले तेरे लिये औ वज्ञ विच रक्खे गये ॥
उनको समंग बढाने औ पान करने के लिये ।
औ वज्रमण्डप-मध्य अभिमुख हयों द्वारा जाइये ॥ १ ॥ ३६३ ॥

अथ द्वितीयायाः कामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३१२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
इय इन्द्र षडाय ते सोमाश्चिद्विज्र उक्थिदः ।

^{१ २ ३१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
मधोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्य स्तोत्राय गिर्वणः ॥ ३ ॥ २६४ ॥

अथ तृतीयायाः मेधातिथिर्मध्यानिधी वा ऋषी । एके विश्वा-
मित्र इत्याहुः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३१ २ ३१ २ ३१ २}
आ त्वारथ सवर्दुशथ हुवे गायत्रवेपसम् ।

^{१ २ ३२ ३२ ३२ ३१ २ ३१ २ ३ १ २}
इन्द्रं धेनुथे षडुग्रामन्यामिषमुग्रधारामरं कृतम् ॥ ३ ॥ २९५ ॥

अथ चतुर्थ्याः नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
न तथा वृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वाडवः ।

^{१२ २२ ३१२ २२ ३ २ ३ २ ३२ २२}
थच्छिन्नसि स्तुपसे मावने वसु नकिष्टश भिनाति ते ॥ ४ ॥ २९६ ॥

अथ पंचम्याः मेधातिथिऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥

^{१ २ ३२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
एइ वेद सुते सचा पिदन्तं कद्रया दधे ।

^{३१२ २२ ३१२ २२ ३ १ २ ३ १ २}
अथं च। पुरां धिमिनन्योजसा मन्दानः शिम्-यन्यसा ॥ ५ ॥ २९७ ॥

हे इन्द्र ! तेरे हर्ष को उत्पन्न करने के लिये ।

श्री स्तोत्रयुत ये सोमरस यहँ दृष्टिगोचर आवते ॥

श्री सुखप्रद रस सेवते स्तुतिरूप वाणी को सुनें ।

श्री बन्ध ! स्तोता मैं तिखे अभिमत फलों को देइ हैं ॥ २ ॥ २६४ ॥

हे इन्द्र ! अब अतिदूध वाली दिव्य वेग धरावती ।

सुख के दुहन के योग्य और विचित्रपन को राखती ।

जिसके स्तनों में विविध पशु की धार बहती जावती ।

अस इष्टधेनु स्वरूपि शोभित इन्द्र को बुलवात हूँ ॥ ३ ॥ २६५ ॥

हे इन्द्र ! भारी बलसहित औ अधिक दृढ़ता धारते ।

वास शैल भी तुमको पराक्रम से न रुकहुं रुकावते ॥

श्री प्रशंसक मुझ से पुरुष को वित्त जो तुम देवते ।

उस द्रव्य को न कदापि कोई कहीं पर भी रोकले ॥ ४ ॥ २६६ ॥

श्री सोम से सम्पन्न होते ऋत्विजों के साथ मैं ।

श्री सोम पीते इस सुरेशहिं कौन अस जो जान लै ॥

कितनेक अज्ञहिं धरै यह जो इन्द्र वेग धरावना ।

श्री सोम से सन्तुष्ट बल से शत्रुपुरहिं नसावना ॥ ५ ॥ २९७ ॥

अथ षष्ठ्याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
यदिन्द्र शासो अत्रतं च्यावया सदसस्पतिः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अस्माकमथं शुं मघवन्पुरुस्पृहं वसव्ये अधिवर्हय ॥ ६ ॥ २९८ ॥

अथ सप्तम्याः वामदेव ऋषिः । विश्वेदेवा देवता । बृहती छन्दः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
त्वष्टा नो देव्य वचः पजन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

२ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
पुत्रेभातुभिरदितितुं पातु नो दुष्टं त्रासणं वचः ॥ ७ ॥ २९९ ॥

अथाष्टम्याः घालखिल्या ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
कदाचन स्तरीरति नेन्द्र सश्वसि दाशुषे ।

३ १ २ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
सपोपेक्षु मघवन्भूय इक्षु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ८ ॥ ३०० ॥

अथ नवम्याः मेधातिथिः ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
युद्धवाहि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अर्वाचीनो मघवन्त्साम पीतय उग्र ऋष्वेभिरागहि ॥ ९ ॥ ३०१ ॥

हे इन्द्र ! जो तुम यज्ञद्वेषी जनों का दण्डित करो ।

अतएवं मख का शत्रु होवे पास तिहिं अलगहि धरो ॥

हे धनिक ! भगणित जनों से स्पृहणीय पदवी पावते ।

अथ हमारे रस को वसतियुत स्थान बीच बढ़ाइये ॥ ६ ॥ २९८ ॥

रूपाभिमानी देव त्वष्टा तथा वारिद् देवता ।

श्री मंत्र का अभिमानी श्रीयुत ब्रह्मणस्पति देवता ॥

सुत भाइ युत श्री अदिति भी खल-कृत्य से अतिकठिन जो ।

अस रक्षणीय मखार्ह स्तुति को त्वरायुक्त वचाइयो ॥ ७ ॥ २९९ ॥

हे इन्द्र ! तुम न कदापि हिंसकपने को धारण करो ।

श्री हव्यप्रद यजमान से याजक-गणहि मिलवात हों ।

हे धनिक ! दिव्य प्रकाश रावर बहुत सा जो दान है ।

वह हमारे सान्निध्य में बिन श्रम चला कर आत है ॥ ८ ॥ ३०० ॥

हे पाप नाशक श्रेष्ठ ! श्रीयुत इन्द्र संज्ञक देवता ।

निश्चय हरित रंग युक्त घोड़े स्वरथ के संग जोड़ना ।

हे धनाधिप ! सुस्पष्ट बल युत आभि मुख्यहिं धारते ।

श्री दिव्य मरुतो सहित दूर दुलोक से यह आइये ॥ ९ ॥ ३०१ ॥

अथ दशम्याः नृस्येभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

२ ३ १२ २२ ३ १ २
स्वा सिद्धाहो नरोऽपीप्सन्वज्जिन्भूर्यायः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
स इन्द्र स्तोमवाहस इह शुधुपस्वस्वस्वमागहि ॥ १० ॥ ३०२ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।

अथ अष्टमः खण्डः ।

—:०:—

तत्र प्रथम्यायाः ऋषिः ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

१ २ ३ २ १ २ ३ २ ३ २
भर्यु अदर्षायत्युरेच्छन्ती हुहिता दिवः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
अपोमही वृणुते वज्रपा तवा ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ १ ॥ ३०३ ॥

अथ द्वितीयायाः ऋषिः ऋषिः । अश्विनो देवता । बृहती छन्दः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ ३
इमा च वां दिपिष्टय ससा हवन्ते अश्विना ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अथ वामह्वेऽवसे शचीवसू विशं विशथं हि गच्छथः ॥ २ ॥ ३०४ ॥

हे वज्रधारी ! जिन तुम्हें श्री इन्द्र के दातार ने ।

इस आज ही पहले दिवस में सोमरस पिलवादिये ॥

हे इन्द्र ! बहतू स्तोत्र गायक हमारे श्री गान को ।

इस यज्ञ में सुन हमरे स्थान में भाजाइयो ॥ १० ॥ ३०२ ॥

इति तृतीयाध्याय का सप्तम खण्ड ॥

अथ अष्टम खण्डः ।

आती हुई गाढान्ध कारों को अलग सरकावती ।

श्री सूर्य पुत्री उषा निश्चय लोक से देखी गई ॥

श्री दृष्टि से नैशिकतमों को दूर देश हटावती ।

श्री प्राणियों की नेत्र रूपिणी उषा वृत्ति फैलावती ॥ १ ॥ ३०३ ॥

अश्विनि कुमारों ! ये प्रजार्ये स्वर्ग लोकहिं चाहतीं ।

व्यापक ! सुयाजक मण्डली तुमको यहां बुलवावती ॥

हे कर्मधन ! रक्षार्थ यह मैं तुम्हें तोषि बुलात हूँ ।

कारण प्रशंसक भक्त के सान्निध्य में तुम जात हो ॥ २ ॥ ३०४ ॥

अथ तृतीयायाः अश्विनौ वैवस्वतावृषी । अश्विनौ देवते । बृहती छन्दः ।

२३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 छुष्टः कोवामश्विना तपानो देवा मर्त्यः ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 घना घामश्वया क्षयमाणोऽं शुनत्षष्टु आद्वन्यधाः ॥ ३ ॥ ३०५ ॥

अथ चतुर्थ्याः प्ररुक्णद् ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २
 अयं दां मधुमक्षमः सुतः सोमो दिविष्टिषु ।

१ २ १ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 समश्विना पिवतं तिरो अह्यं षत्तं रत्नानि दाशुषे ॥ ४ ॥ ३०६ ॥

अथ पंचम्याः मेधातिथि श्लेष्या तिथी ऋषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 आ त्वा सोमस्य गन्दया सदा याचन्नहं ज्या ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 भूणि मृगं न क्षणेपु चुक्रुषं क ईशानं न याचिषत् ॥ ५ ॥ ३०७ ॥

अथ षष्ठ्याः देवामिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

१ २ ३ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २
 अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
 उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रपा ॥ ६ ॥ ३०८ ॥

हे देव आश्विनिकुमारों ! भूलोक विच स्थिति पावता ।

ऐसा मनुज है कौन जो तुमको प्रकाश दिलावता ।

तुम्हारे लिये पाषाण से कूटे हुए श्री सोम से ।

थाका हुआ यजमान भोक्ता भूप सम हो जात है ॥ ३ ॥

आश्विनिकुमारों ! तुम्हारे श्री विविध यज्ञों के विषे ।

अति मधुर यह श्री सोमरस भलिभाँति से प्रकटित हुआ ।

पहले दिवस सम्पन्न ऐसे सोमरस को पीजिये ।

श्री इन्द्र प्रद यजमान के लिय श्रेष्ठ धन दे दीजिये ॥ ४ ॥ ३०५ ॥

हे इन्द्र ! भरणे हार सिंह समान तोय यज्ञों विषे ।

श्री सोमरस युत विजय स्तुति से मैं सदैव मदावता ।

अति क्रोध को कर्क दूर अस को स्वामि से नहिँ माँगता ।

ऐसी दया कीजे कि जिससे क्रोध मम मिटजावना ॥ ५ ॥ ३०६ ॥

अध्वर्यु ! उत्तर वेदिका पर सोमरस पहुंचावना ।

कारण सुरेश्वर देव उसका पान करना चाहता ।

श्री वरुण घोड़े आज रथ के साथ सारथि ने किये ।

श्री वृत्र के विध्वंस कारक इन्द्र यहँ पर आगये ॥ ६ ॥ ३०७ ॥

अथ सप्तम्या षष्ठिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{३ २ ३ २ ३ ३ ३ २ ३ १ २}
अभीषतस्तदाभरेन्द्र ज्यायः कनीषसः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
पुरुवसुहिं मघवन् वभूविथ धरे सरे च हव्यः ॥ ७ ॥ ३०६ ॥

अथाष्टम्याः ऋष्याद्याः पूर्ववत् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
अदिन्द्र यावत् स्त्वमेतानददधीशीय ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
स्तोताशविदधिषे रदावसो न पापत्यापरथ सिपम् ॥ ८ ॥ ३१० ॥

अथ नवम्याः ऋषेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ६ १ २}
त्वमिन्द्र प्रतूर्षिष्वाभि दिग्धा असि स्पृषः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
पशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्षं तरुष्यतः ॥ ९ ॥ ३११ ॥

हे सर्वपूजित इन्द्र ! जब तुम याचना किय जावते ।
घब ख्यातियुत धन छुद्र मुक्को सर्वथा ला दीजिये ।
हे धनिक देव ! अनन्त जनता से प्रपूजित हो गये ।
प्रति समर पूजा योग्य औ हव्यार्ह भी तुम हो रहे ॥ ७ ॥ ३०६ ॥

हे इन्द्र ! जितने वित के जग आप सर्वाधीश हो ।
उतनेहि धन समुदाय को मैं भी अधीश्वर हो इहों ।
हे धनद ! मैं निज सामगायक को विभव दे राख लूं ।
औ वृथा नष्ट करावने के लिये कभि नहिं वान दूं ॥ ८ ॥ ३१० ॥

हे इन्द्र ! तुम युद्धों विषे सब शत्रु सैन्यहिं डांटते ।
हे शत्रुनाशक देव ! तुम दैवीविपत्ति मिटाइये ।
पुनि हमारे रिपुवर्ग के लिय तुम्हीं दुःख उपजावते ।
औ सकल अरि नासो तथा बाधक गणहिं संहारते ॥ ९ ॥ ३११ ॥

अथ दशान्याः नोषा ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।

^{१२ २२ ३१२ २२ ३१२ २२ ३ १ २}
प्रथो रिरिक्तं सोमसा द्विवः सदोभ्यस्परि ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमतिविश्वं विवक्षिष ॥ १० ॥ ३१२ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य अष्टमः खण्डः ।

अथ नवमः खण्डः ।

—:०:—

तत्र प्रथमायाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ २२ ३ २ ३ २ ३ १ १ ३ १ २}
असा विदेवं गोश्रुज्जीह मन्थो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुष मुवाच ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २}
बोधामसि त्वा हर्यश्वयज्ञैर्बोधानः स्तोममन्धसा षद्वेत्तु ॥ १ ॥ ३१३ ॥

अथ द्वितीयायाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २}
योनिष्ट इन्द्र सद्ने अकारितपानृभिः पुरुहूत प्रयाहि ।

^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
असो यथा नोविता वृधश्चिद्दा वसूनि ममदक्ष साभिः ॥ २ ॥ ३१४ ॥

हे इन्द्र ! जो तुम श्री दिवाभिष उत्तमोत्तम स्थान से ।

षड योग द्वारा अधिकता के साथ श्रेष्ठ कहावते ॥

हे देव ! पार्थिव लोक तनुषे तुम्हें व्याप्त न कर सका ।

अस दली तुम सबको विचारि हमेंहि श्रेष्ठ बनावना ॥ १० ॥ ३१२ ॥

अष्टम खण्ड समाप्त ।

नवम का आरम्भ ॥

श्री दीप्त गो घृत से विशद सोमाज को प्रकटित किया ।

यह इन्द्र इस सोमाजमें तत्पर सहजही होवता ।

हे इन्द्र ! तुमको हव्य, औ स्तुतिवर्ग से बोधित करें ।

श्री सोमरस के प्रसोदों में हमरि स्तुति तुम जानलें ॥ १ ॥ ३१३ ॥

हे इन्द्र ! तेरे ठहरने को स्थान बनवाया गया ।

हे अनेकों के मान्य नेता मरुत्संग तहँ आवता ॥

ज्यों हमारे आतार वृद्धि प्रदान कारक होइयो ।

श्री धन हमें दो तथा सोमों से प्रकुलित होजियो ॥ २ ॥ ३१४ ॥

(१००)

अथ तृतीयायाः गानुर्ध्विः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अदद्वरुत्समसृजो विखानि त्वमणवान् वद्वधानां अरम्णः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २
महान्तमिन्द्र पर्वतं वियद्मः सृजद्गारा अबयदानवान्हन् ॥ ३ ॥ ३१५

अथ चतुर्थ्याः पृथुर्वैन्ध ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
सुष्वाया स इन्द्र रतुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्य वाजम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
शानो भर सुवितं यस्य काना तनात्मना सहामात्वाताः ॥ ४ ॥ ३१

अथ पंचम्याः सप्तगुर्ध्विः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

३ २ १ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २
जगृह्णाते दक्षिण मिन्द्र इस्तं वसुयवो वसुपते वसूनाम् ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
विज्ञाहे त्वां गोपतिं शूर गोना मस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथि दाः ॥ ५ ॥ ३१

हे इन्द्र ! तुमने जल-प्रपूरित मेघ को विदलित किया ।

घुनि वारिदों के जल विनिर्गम द्वार भलि विधि रच दिया ।

पाथक सजल नीरद् उन्हें टपकाय जिन्ह तुमने घने ।

करि मेघ विवृत धार छोड़व जल तभी दानव हने ॥ ३ ॥ ३१५

हे इन्द्र ! हम सोमाभियोक्ता स्तुति तुम्हारी गावते ।

हे अतिधनी ! शुचि हव्य देते हम तुझे मनवावते ॥

इस हेतु पाने योग्य उत्तम वित्तदो तुमको रुचै ।

औ सुरक्षित तुमसे असे धन आप ही हम पावते ॥ ४ ॥ ३१६

नाना धनों के वर्गों से धनाधीश्वर देवते ।

वित्ताभिलाषी हम तिहारा हाथ दक्षिण लेवते ।

हे वीर ! श्री गोवृन्द में गोपति तुम्ही को जानते ।

भतएव सर्वाऽभीष्ट साधन द्रव्य हमहिं दिलाइये ॥ ४ ॥ ३१७ ।

अथ षष्ठ्याः वसिष्ठऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २} इन्द्रं नरो नमसिता हवन्ते यत्पायां सुनजते धियस्ताः ।
^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

शूरा वृषाता श्रवसश्चक्ष्मास आर्गोमति वृजे भजा त्वनः ॥ ६ ॥ ३१८ ॥

अथ सप्तम्याः गौरिदीत ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{१ २ २ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेघा ऋषयो नाथमानाः ।
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

अपध्वान्तमूर्णुहि पूरिधिं चक्षुमुमुग्ध्यऽस्माञ्जिधेयव वद्वान् ॥ ७ ॥ ३१९ ॥

अथाष्टम्याः वेनो भार्गव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २} नाकं सुपर्णमुपयत्पत्तन्तेऽहृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा ।
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

हिरण्यपत्नं वरुणस्य दूतं यमस्य खीनी शकुनं भुरण्युम् ॥ ८ ॥ ३२० ॥

जब युद्ध में रक्षार्ह विश्रुतकार्य बन आजावते ।

तब मखी वा संग्रामि जन जहँ इन्द्र को बुलवावते ॥

अस वीर मानव व्यवस्थापक अन्न वा बल चाहते ।

गौ शादि पशुयुत गोष्ठ का स्वामी हमें बनवाय वै ॥ ३१८ ॥

श्री विचरणी गिरते समय में जगत् अति सुखदायिनी ।

श्री यज्ञ की प्यारी विलोकिनि सुमति को भल चाहनी ।

अस सूर्य की श्री किरण माला इन्द्र सेती जा मिलीं ।

तम को मिटा छुति देय पाशग्रस्त सर हमको छुड़ा ॥ ३१९ ॥

श्री शुभ चढ़ने वाल गगन विच गति को धारत ।

स्वर्ण पक्ष श्री वरुण देव का दौत्य धरावत ।

श्री नियन्तृ जां वैद्युताग्नि के स्थान गगन विच ।

विहग रूप से वर्त्तमान वर्षण आदिक कर ।

सर्व जगत् को पालने तुम्हें चित्त से चाहते ।

स्तोताव्योम कि ओर को देखत तब तुम जावते ॥ ३२० ॥

अथ नक्षत्राः बृहस्पतिर्नकुलो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

महाजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्द्वितीयतः सुरुचो वन आवः ।

क २२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

सबुध्न्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ ९ ॥ ३२१ ॥

अथ दशम्याः सुहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महवीराय तवसे तुराय ।

विपश्चिने वज्रिणे शान्तमानि सचाष्टस्यस्मै स्थविराय तनुः ॥ १० ॥ ३२२

इति नवमः खण्डः ।

अथ दशमः खण्डः ।

—:०:—

तत्र प्रथमायाः सुमान ऋषिः । इन्द्रो देवता छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

अवद्वृत्तो अंशुमती मतिष्ठदीयानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः ।

३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ १ ३ २

आद्यत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्त्रीहितं नृमया अधद्राः ॥ १ ॥ ३२३ ॥

वेन नाम गन्धर्व पूर्व प्रकटित वा ज्ञानी ।

माक्षण आद्य शरीर ताहि मुख से सुख ध्वनि कर ॥

इस भासति सत्काम्ति सेति रक्षा को करता ।

वह गगनस्थरु इस तनु सम रवि कान्ति विधरता ॥

और इस समय वरतती तथाजु आगे होयगी ।

अस उत्पत्ति के कारणहिं भली भांति प्रकटा दिया ॥ ९ ॥ ३२१

जो वदपन युत शूर अगणित शत्रुओं को मारता ।

बलधन्त द्रुत गति तथा आतेशय स्तुत्य माना जावता ।

अस वज्रधारी वृद्ध इस श्री युक्त इन्द्रहिं के लिये ।

नूतन बहुत सुखप्रद स्तवों को स्तोतृवृन्द उच्चारते ॥ १० ॥ ३२२

तृतीयाध्याय का नवम खण्ड समाप्त ।

दशम का आरम्भ ।

द्रुत गति औ दश सहस्र असुर संग करक आक्रमण ।

कृष्ण अंशुमति सरित निकट आकर स्थिति करदिय ।

पुनि अपने प्रज्ञान सेति जग भयद शब्द कर ।

अस कृष्णहिं श्री इन्द्र मरुद्गण सहित प्राप्त हुआ ।

और याजकासक्त मन इन्द्र नामधर देवने ।

हिंसायुत अस असुर के सैन्यवर्ग को संघ किये ॥ ६ ॥ ३२३

अथ द्वितीयायाः ऋष्याद्याः पृथपत् ।

^{३ १ २} ^{३ २ ३ १ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २} ^{२ २}
हृत्स्य त्वा म्पथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुये सखायः ।
^{३ १} ^{३ १ २ ३} ^{२ ३ २ ३} ^३ ^{१ २}
महाहिरिन्द्र सख्यं ते अस्तनक्षेमा विश्वाः पृथना जयासि ॥ २ ॥ ३२४ ॥

अथ तृतीयायाः पृहदुत्थ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{३ १} ^{२ ३ १ २} ^{२ १} ^{३ १ २} ^{२ ३ १ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २}
दिधुं ददाणथसमने बहूना युवानथसन्तं पलितो जगार ।
^३ ^२ ^{३ १ २ ३} ^{२ ३} ^{३ २ ३} ^{१ २} ^{२ २}
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार सहाः समान ॥ ३ ॥ ३२५ ॥

अथ चतुर्थाः द्युतान ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^२ ^{३ २} ^{३ २} ^{३ १ १} ^{३ १} ^२ ^{३ १ २}
त्वथह त्यत्सप्तभ्यो जायमानो शत्रुभ्योऽस्यभयः शत्रुमिन्द्र ।
^{३ १ २} ^{२ ३ १ २} ^{१ २} ^{३ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २}
गूढ घावापृथिही अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रण घाः ॥ ४ ॥ ३२६ ॥

हे इन्द्र ! तूव जे विश्वेदेवा रणों में वनि गे सखा ।
वे वृत्र के प्रधास से डर कर चहूँ दिशि भागि गे ।
जब तुम्हें छोड़ा तब परम सख मरुत्से तूव सख्य हो ।
तब हन सकल रिपु सैन्य को निज पराक्रम से जीत लो ॥ ३२४ ॥
युद्धादि का कर्त्ता समर में विविध रिपु को जीतता ।
अस्य युवा को बूढ़ा सुरेश्वर की कृपा से निगलता ।
सम्पूर्ण काल स्वरूप इन्द्रकि बड़ी महिमा देख लो ।
यह जीव बूढ़ो आज मरतो काल जग में जनमतो ॥ ३ ॥ ३२५ ॥
इन्द्र ! अवशि श्री शौर्य कर्म अस करत रहत तूम ।
प्रकटत रिपु बिन सात असुरदल को खरिडव किय ।
अथवा जो होतगदि यज्ञ के सात होतजन ।
उनको बाधा देत उन्हीं के आप शत्रु हुआ ।
इन्द्र ! तुम्होंने ढके हुआ धरणि अकाशहि पालिये ।
सूर्य रूप से विभवयुत जग से रण-महिँ धारते ॥ ४ ॥ ३२६ ॥

+ श्री वेद भगवान् की स्पष्टतया आज्ञा है कि जीवों का गमनाऽगमन होता रहता है । इधर मरता है और उधर कर्मानुसार जन्म धारण करता है ।

अथ पंचम्याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{३१२ २२ ३१२ ३१२ ३१२ ३२ ३१२}
सोढं नत्वा वाज्रं भृष्टिपन्तं पुरुषस्थानं वृषभश्चिस्थिरप्सुम् ।

^{३२२ ३ १२ ३ १२ २२ ३१ २३१ २}
करोष्यस्यस्तरुषीर्दुवस्युरिन्द्रं युक्तं वृत्रहणं गृणीषे ॥ ५ ॥ ३२७ ॥

अथ षष्ठ्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिपदा विराट् छन्दः ।

^{१२ ३१२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२}
प्रवो महामहे वृषे भरध्वं प्रचेतसे भसुमतिं कृणुध्वम् ।

^{१२ ३१२ २२ ३ २}
विशः पूर्वाः मचर चर्षणि प्राः ॥ ६ ॥ ३२८ ॥

अथ सप्तम्याः विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{३१ २ ३१ २३१ २१ २३ ३ १२३ १२}
शून्यं ह्रुवेप मघवानमिन्द्रपस्विन्परं नृत्तमं वाजसातौ ।

^{३ १ २ २ ३३१ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
शृण्वन्तमुग्रमूनये समत्सु धनन्तं वृत्राणि संजितं धनानि ॥ ७ ॥ ३२९ ॥

अथाष्टम्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

^{२३ १२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
उद्गु ब्रह्माण्यैरत भवस्यन्द्रश्चसमर्थं महया वसिष्ठ ।

^{१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
आयो विश्वानि भवसा ततानो पश्चता म इवतो वचाश्चिसि ॥ ८ ॥ ३३० ॥

हे इन्द्र ! स्तुति को चहत छुम रिपु क्षीण कर जय दो हमें ।

अतएवद्यो वर्षिणी वाणी को नमैं त्यों तोय नमैं ।

श्री मेघ प्रेरक स्वर्गवासी वारिवह सुखदेवने ।

स्थिर रूप, भर्जा, रिपु शमन अस तुम्हें स्तुति से गाव हूं ॥५॥३२

मेरे मनुष्यो ! अति धनदशौ महा महिमा धारना ।

अस ज्ञानि इन्द्र हितार्थ सस्तुति सोम भेट चढावना ।

हे मनुष्यों के अर्थ साधक इन्द्रसंज्ञक देवता !

श्री हव्यदात्री प्रजा के सम्मुख तुम्हीं आजावना ॥ ६ ॥ ३२८ ॥

श्री अन्न के दाता इसी रण में जय श्री देवने ।

उत्साहि धन युत सर्व नेता इन्द्र को बुलवावते ।

जो स्तुति सुनै रिपु को हनै संप्राम विच असुरहिं दलै ।

अरि धनों को जीतै उसे रक्षार्थ हम बुलवात हैं ॥ ७ ॥ ३२९ ॥

अन्नार्थ स्तुति युत हव्य को ऋषि इन्द्र के अपर्ण करो ।

श्री जितन्द्रियवर ! तुमभि स्तुत्युपहार मख में शाचरो ।

जो इन्द्र सब जग को सुकीरति अन्न से ति वढावता ।

वह मुझ उपासक से कथित विरुदावलिहिं सुनपावना ॥ ८ ॥ ३३० ॥

अथ नवम्याः गौरिषीतिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता त्रिष्टुप् छन्दः ।

३१२ १२ ३ १२ २२ ३१२ २२३ १२ २२
चक्रं यदस्याप्सवानिपत्तमुतो तदस्मै मधिस्रुवच्छयात् ।

३१२ २२३ २२ ३ २३ १२२२ ३ १ २
पृथिव्यामतिदितं यदृषः पयोमोष्यदधा औषधीषु ॥९॥३३१॥

इति दशमः खण्डः ॥

अथैकादश्याः खण्डः ।

तत्र प्रथमाया अरिष्टनेमिस्तादर्यपुत्र ऋषिः । तादर्यो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

३१२ ३१२ ३१२ ३१३२ ३२३ १२
त्यसृषु वाजिनं देवजूनथं सद्योवानं तरुतारथिरथानाम् ।

१२ ३१२ ३२ ३२ ३ १२ १२ २
अरिष्टनेमिं पृत्तनाजमाशुथस्वस्तये तादर्यमिहा ह्रुवेष ॥१॥३३२॥

अथ द्वितीयाया भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

३२ ३३१ २ ३२ ३ २ ३ १२ ३ २ ३ २ ३ १ २
त्रातारमिन्द्रमभितारमिन्द्रथहवेहवे सुहवथशूरांमन्द्रम् ।

३२ ३ ३ २ ३१२ २२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
ह्रुवे तु शक्रं पुरुहूनामिन्द्रमिदथहविमघना वेत्विन्द्रः ॥२॥३३३॥

इस इन्द्र का जो चक्र आयुध गगन में सब ओर से ।

स्थित हो रहा था मेघ को विदालित करन ही के लिये ।

औ वह भि इस इन्द्रार्थ नीरहिं स्ववशवार्ति वनावता ।

भूलोक में छोड़े सलिल को औषधी में डारता ॥ ६ ॥ ३३१ ॥

इस प्रकार दशम खण्ड समाप्त हुआ ।

अथारह का आरम्भ ॥

विख्यात बल वा भ्रम युत सुरवृन्द से प्रेरित हुआ ।

श्री शक्ति युत रण में रथों का ज्ञाण कर्ता हो रहा ।

श्री तीक्ष्ण आयुधवन्त रिपुसमुदाय को जो जीतता ।

उस शीघ्रगामी तादर्य को यह सुखनिमित्त बुलात है ॥ १ ॥ ३३२ ॥

श्री सुरक्षा के करन वारे इन्द्र को बुलवावता ।

श्री सकल वाञ्छित-सिद्धिप्रद अस इन्द्र को बुलवावता ।

सब रणों में सुख से बुलाने योग्य वीर समर्थ हो ।

बहुमान्य देवहिं न्योतता वह धनी इस हवि को चहो ॥ २ ॥ ३३३ ॥

अथ तृतीयस्याः वसुक्तो विमदो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

अजामह इन्द्रं वज्रदाक्षिण्यं हरीणां रथया विवृतानाम् ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

प्रश्मश्रुभिर्द्रोणुवदूध्वधा भुवद्वे सेनाभिर्भयमानो विराजसा ॥३॥३३४॥

अथ चतुर्थ्याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सप्राहयां दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवज्रम् ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्ता यो वृत्रं सनितातवाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥४॥३३५॥

अथ पंचम्याः ऋष्याद्याः पूर्व वत् ।

१ २ ३ १ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

यो नो वनुष्यन्नाभिदाति सत्तं सगणावा मन्यमान स्तुरोवा ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभीष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥५॥३३६॥

लो दक्षिण फर साँहि वजू आयुध को धारत ।
रथ वाहन इत्यदि विविध फसों का कारक ।
श्री हरि नामक अश्व स्ववश करि रथ में जोड़त ।
अस इन्द्रहिं श्री सोम इव्य से भलि विधि पूजत ।
वहै देव निज दाढ़ि औ मूँछ हिला ऊपर हुवै ।
देवसैन्य से रिपु डरा स्तोतहिं भति धन देत है ॥ ३ ॥ ३३४ ॥

रिपुवर्ग का नाशक, प्रगल्भ, अभिन्नगणुको डाँटता ।
श्री पूज्य निर्जर तथा सकल मनोरथों को साधता ।
अस इन्द्र की हम स्तुति करें जो वृत्र का संचय करै ।
औ अन्नदाता सुधन इन्द्र हमें विभव दिलवाइ है ॥ ४ ॥ ३३५ ॥

जो दनुज हमको मारना चाहता हुआ चाढ़िभावता ।
मानी क्षयावह शस्त्र ले अत्यन्त द्रुतगति धारता ।
उत्तम समूह स्वरूप प्रहराणि हमरि जनता से लड़े ।
तुम से सुरक्षित वृष सरिस हम सजे निदलित कर धरें ॥ ५ ॥ ३३६ ॥

(१०७)

अथ बृहथा अपि ऋष्याद्याः पूर्ववत् ।

१ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
यं वृत्रपु क्षितयः स्पर्शमाना यं युकेषु तुरयन्तो हवन्ते ।

१ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
यथैशूः सातो यमपागुपज्गन् यं विपासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥ ६ ॥ ३३७ ॥

अथ सप्तम्याः विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रा पर्वतौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
इन्द्रापर्वता वृहता रथेन वापीरिष आवहतथ सुवीराः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
शीतथ हव्यान्यध्वरेषु देवा बधेथां गीभिरिडया मदन्ताम् ॥ ७ ॥ ३३८ ॥

अथाष्टम्याः रेणुर्ऋषिः । इन्द्रापर्वतौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
इन्द्राय गिरा अनिशितसर्गा अपः प्रेरयत् समरस्य सुधनात् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
यो अक्षेणैव चक्रिषौ शचीभिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमृतयाम् ॥ ८ ॥ ३३९ ॥

संप्रामों में क्रोधयुक्त नर जाहि पुकारत ।

सायुधरण में स्पर्द्धायुत हो जाहि चुञ्चावत ।

सैनिकगण के भाग हुए पै जिसे पुकारत ।

जलप्राप्ति के लिये जिसे अतिशय बुलवावत ।

थी वर्षा की प्राप्तिहित शरण जिसी की जात है ।

और सुयज्ञा जिसे हवि देत रहत वह इन्द्र है ॥ ६ ॥ ३३७ ॥

हे इन्द्र औ पर्वत ! वृहद्रथ माहि आप पधार के ।

श्री प्रार्थनाई सुपुत्रयुत अन्नार्द्धि की दिलवाइये ।

श्रीयुत प्रकाशित देव ! हमरे मखों में हवि पाइये ।

दत्तान्न से सन्तुष्ट हो स्तुति से अधिक पढ़जाइये ॥ ७ ॥ ३३८ ॥

इन्द्रार्थ सन्तत प्रोक्त उच्छस्वरो से स्तुतियाँ कर्ही ।

उनसे गगनस्थित जलों के समुदाय को प्रेरित करें ।

जो इन्द्र मखकृत्यादि से धरणी आकाश धुलोक को ।

रथ अक्ष थमत धुरे से त्यों सर्वतः स्थंभित हुआ ॥ ८ ॥ ३३९ ॥

अथ नवम्याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरुचिदद्यावाञ् जगम्याः ।

पितुर्नपातमादधीत वेधा अस्मिन्क्षये प्रतरा दीद्यानः ॥ ६ ॥ ३४० ॥

अथ दशम्याः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ।

को अद्य युद्धे धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुहण्यायून् ।

आसन्नषाम्पु वाहो मयाभून् एषा भृत्यामृणधत्स जीवात् ॥ १० ॥ ३४१ ॥

इत्येकादशः खण्डः ।

अथ द्वादशः खण्डः ।

— १० —

तत्र प्रथमायाः मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

गायन्ति त्वा गायत्रियोऽर्चन्त्यर्कमर्कियाः ।

ब्रह्माणुस्त्वा शतक्रत बद्धशमिष येमिरे ॥ १ ॥ ३४२ ॥

हे इन्द्र ! स्तोताजन तुझे प्रिय गान से अभिमुख करें ।

कारण विशाल अकाश से उड़ते हुए तुम चल दिये ।

इस यज्ञ में अतिदीप्तियुत श्रीयुत विधाता इन्द्र है ।

मेरे पिता को पौत्र अर्थात् मुझे सुत का जन्म दे ॥ ६ ॥ ३४० ॥

आज यज्ञ में जानबाल सुरपति रथ धुर में ।

जुड़े, वीर तेजस्वि रिपुन पै अमित क्रोधि है ।

मख में इन्द्रहिं पहुँचावत सुखप्रद अन्न घोड़न ।

सुख के द्वारा गीत स्तोत्र से कौन नियोजत ।

जो यष्टा इन हयों के रथ लेजावन को स्तवै ।

जो यजमन अवश्य ही चिरंजीव हो सुख लहै ॥ १० ॥ ३४१ ॥

एकादशखण्ड समाप्त हुआ ॥

द्वादश का आरम्भ ।

हे इन्द्र ! सब उद्गातृजन तेरे विरुद्ध को गावते ।

पूजाई मंत्रों सेति होता पूज्य इन्द्रहिं मानते ।

औ भन्स ब्राह्मण आपको इस भांति उन्नति देत हैं ।

ज्यों नृत्य करता हुआ नद बांसहिं उपरि कर लेत हैं ॥ १ ॥ ३४२ ॥

अथ द्वितीयाद्याः जेता साधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{२ ३ १ २} इन्द्रं विश्वा अवीवृणन्तसमुद्रव्यचस्रं मि ॥ ।

^{३ १ २} रथीतमथं ^{३ ५ २} रथीनां ^{१ २ ३} वाजानां ^{१ २ ३ १ २} सत्पतिं पतिम् ॥ २ ॥ ३४३ ॥

अथ तृतीयाद्याः गौतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{३ १ २} इममिन्द्रसुतं ^{३ १ २ २} पित्र ज्येष्ठममर्त्यं ^{२ ३ १ २} मदम् ।

^{३ १ २} धुकस्य ^{३ ५ २} त्वाभ्यक्षरन् धारा ऋतस्य ^{३ १ २} सादने ॥ ३ ॥ ३४४ ॥

अथ चतुर्थ्याः अत्रिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{१ २} यदिन्द्रं ^{३ २ ५} चित्रं म इह नास्ति ^{३ १ २} त्वादातमद्रिदः ।

^{३ १ २} राधस्तत्रा ^{३ ५ २} विददस उभया हस्त्याभर ॥ ४ ॥ ३४५ ॥

अथ पंचम्याः तिरश्ची आङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{३ १ २} धुधीं हव तिरश्च्या ^{३ ५ २} इन्द्रं यस्त्वा सपर्यति ।

^{३ १ २ ३ १ २} सुत्रीर्यस्य ^{३ ५ २} गोमतो रायस्पृधिं ^{३ ५ २} मर्षांशामि ॥ ५ ॥ ३४६ ॥

श्री सागरों के संदृश ही अत्यन्त माहिमा धारता ।

श्रीयुक्त योधागणों में सर्वोच्च होय विराजता ।

पुनि अन्न का पति तथा सज्जनवृन्द की रक्षा करै ।

अस इन्द्र को हमरे सज्जल स्तुतिवर्ग ने उन्नत किया ॥ २ ॥ ३४३ ॥

हे इन्द्र ! यह जो सोमरस अत्यन्त स्तुति को पावला ।

आनन्द देनेवार निर्जर भाव को दिलवावता ।

अस सिद्ध रस को पी तथा मख भूमिका पै राजती ।

श्री सोमरस की धार अभिमुख आपके आज्ञावती ॥ ३ ॥ ३४४ ॥

हे चित्र गुणसम्पन्न ! श्रियुत वज्रधारी देवता ।

श्री प्राप्तधन ! अस इन्द्र ! तुमको देय ऐसी योग्यता ।

उसके संहित धन मम निकट इस लोक में तो है नहीं ।

इस हेतु वैसा वित्त दोनों करों से दीजे हमें ॥ ४ ॥ ३४५ ॥

हे इन्द्र ! जो तुमको विविध हव्यादि से पूजित करै ।

अस मुक्त तिरश्च्याभिधऋषि कि स्तुति को तुम्हीं भलिविधि सुनें ।

पुनि श्रेष्ठ सुत गौ आदि युत सम्पत्ति देकर पूरिये ।

कारण तुम्हीं सब देववृन्दों मध्य सर्व गुणाढ्य हैं ॥ ५ ॥ ३४६ ॥

अथ षष्ट्याः गौतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
असावि सोम इन्द्रते शबिष्ठ धृष्णवागहि ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
आ त्वा पृणक्तिन्द्रियथ रजः सूर्यो न ररिषभिः ॥ ६ ॥ ३४७ ॥

अथ सप्तम्याः कण्वोनीपातिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सृष्टुतिम् ।

३ २ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ७ ॥ ३४८ ॥

अथाष्टम्याः तिरश्ची ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गर्बिणः ।

३ १ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २
अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥ ८ ॥ ३४९ ॥

हे इन्द्र ! तेरे हेतु यह श्री सोमरस प्रस्तुत धरा ।

हे अतिशली ! रिपुहमन ! यज्ञस्थली के बिच आवना ।

ज्यों प्रभाकर आकाश को किरणालि से भर देवता ।

त्यों सोमपूरित शक्ति आगत आपको भर देवता ॥ ६ ॥ ३४७ ॥

हे इन्द्र ! पाप प्रकाशकारी अश्वगण सँग में लिये ।

मेधावि यष्टागायस्तुति उमके निकट आजाइये ।

इस इन्द्र के दिवलोक शासन समय हम सुख से रहें ।

हे धृष्टिधनयुत देव ! श्री सुरलोक मांहि पधारिये ॥ ७ ॥ ३४८ ॥

श्री घन्दनीय सुरेश ! जब श्री सोमरस बनजावते ।

तब रथी अभिमत स्थलाहि त्यों स्तुतियाँ तुरत तोहि पावतीं ।

हे इन्द्र ! हमरी वाणियाँ तोय स्तुवति अस चलि जात हैं ।

जैसे गवें भौं भौं करति प्रिय वत्स के प्रति आति-हैं ॥ ८ ॥ ३४९ ॥

अथ नवम्या ऋष्यादिकं पूर्ववत् ॥

* एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

शुद्धेनयेर्वावृध्वाथ सथं शुद्धैराशीर्वाण्ममत्तु ॥ ९ ॥ ३५० ॥

अथ दशम्याः शंयुर्वाहृस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

पो रयि वो रयिन्तपो यो युम्नेह्युम्नवत्तपः ।

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥ १० ॥ ३५१ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ॥

हे ऋषिजनो ! आओ तुम त ओ दिव्य साम प्रभाव से ।

पावित्र्य अयुत स्तोत्र द्वारा शुद्ध इन्द्रहि गाय लें ।

पुनि पाप से निर्मुक्त उन्नत देव को स्तोत्रादि से ।

ओ गाय के पयसे सुसंस्कृत सोमरस हर्षाई है ॥ ९ ॥ ३५० ॥

हे इन्द्र ! जो अति धनी कीर्त्तिन सेति षति यशवन्त हैं ।

वह सोम तुम्हारे उपासक समुदाय को धन देत हैं ।

हे सोमरूपी अन्नपालक ! सोमरस वनजावता ।

तव तुम्हारा वह सोमरस अत्यन्त हर्ष दिलावता ॥ १० ॥ ३५१ ॥

तृतीयाध्याय का द्वादशखण्ड तथा तृतीयाध्याय समाप्त हुआ ॥

* पहले किसी समय इन्द्र ने वृत्रादि असुरों का पक्ष करके समझा कि मैं ब्रह्माहत्या आदि के दोष से लिप्त हो गया हूँ, अतः उस दोष को दूर करने के लिये इन्द्र ने ऋषियों से कहा कि—तुम मुझे अपने साम से शुद्ध करो तब ऋषियों ने शुद्ध किया । फिर उस पवित्र हुए इन्द्र को यज्ञादि कर्म में सोम आदि हवि दिया, यह तत्त्व शाकट्यायननामक ब्राह्मण में कहा है ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ चतुर्थाध्याय आरभ्यते ।

अथ प्रथमः खण्डस्तत्र प्रथमायाः भरद्वाजऋषिः ।

इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
मत्पुत्रैः पिपीषते विश्वानि विदुषे भर ।

^{३ २ ३ २ ३ २ ३ २}
अरङ्गपाय जगमयेऽपश्चादध्वने नरः ॥ १ ॥ ३५२ ॥

अथ द्वितीयायाः घामदेवः शाकपूतो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
आ नो वयोवयः शयं महान्तं गच्छरेष्ठाम् ।

^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २}
महान्तं पूर्विनेष्टामुग्रं वचो अपावधीः ॥ २ ॥ ३५३ ॥

अथ तृतीयायाः प्रियमेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{२ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
आ त्वा रथं यथातये सुम्नाय वर्चयामसि ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
तुविकूर्मि मृतीष्वमिन्द्रं शविष्टसत्पतिम् ॥ ३ ॥ ३५४ ॥

अध्वर्यु ! नेता तुम यहै जो सोम पीना चाहता ।

सम्पूर्ण समझन योग्य वस्तुसमूह को लख लेवता ॥

याथार्थ्य ऊपर पहुँचता मख बीच गति को धारता ।

अस सर्व अगुआ इन्द्र के लिय सोम भेट धरावना ॥ १ ॥ ३५२ ॥

हे मित्ररूपी इन्द्र ! ऐसा तू बहुत गिरिखोह में ।

स्थिति करत हमरे सोमरूपी अन्न को ले आयके ॥

अति पुरातन जगवर्ति भूखरु प्यास से भय देवने ।

अस हमारे वचनहिं मिटा तात्पर्य सुरगति दीजिये ॥ २ ॥ ३५३ ॥

श्रीपरम बलयुत इन्द्र ! अपनी सुरक्षा करने लिये ।

सुखहेतु रथ को घुमावें सिस भांति तोय घुमावसे ।

तुम बहुत ही अद्भुत पराक्रम आदि के कर्तार हो ।

हिंसक जनों को छांटते औ सुजन के रखवार हो ॥ ३ ॥ ३५४ ॥

अथ चतुर्थ्याः प्रगाथऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{२ ३ ३ ३ १ २ ३ १२ २२}
स पूव्यो महानां वेनः क्रतुभिरानजे ।

^{३ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे ॥ ४ ॥ ३५५ ॥

अथ पंचम्याः श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २}
षदी वहन्त्याश्वो भ्राजमाना रथेस्वा ।

^{१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २}
पिबन्तो मदिंरं मधु तत्र श्रवाथसि कृणवते ॥ ५ ॥ २५६ ॥

अथ षष्ठ्याः शंयुर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
रयमु वो अप्रहणं गृणीषे शत्रुसस्पतिम् ।

^{१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १}
इन्द्रं विश्वासाहं नरथंशचिष्ठं विश्ववेदसम् ॥ ६ ॥ ३५७ ॥

अथ सप्तम्याः कामदेव ऋषिः । दधिक्रावा देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
दधिक्रावणो अकारिपं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
सुरभि नो मुखाकरत् प्र न आयुथंषि तारिपत् ॥ ७ ॥ ३५८ ॥

वह इन्द्र मुखिया पूज्य यष्टाजनों के मख आदि से ।

श्री इव्य प्रभृति पदार्थ को चहता हुआ आजात है ॥

जिस इन्द्र की संप्राप्ति के उद्यमस्वरूपी कर्म को ।

श्री देवगण में सर्वपालक मनु प्रकटकर देवतो ॥ ४ ॥ ३५५ ॥

जिस यज्ञ में नाना रथों के बीच शोभा पावते ।

द्रुतगति तुम्हारे मरुत अभिमुख कर तुम्हें पहुँचावते ॥

तिस याग में आनन्दप्रद स्वादिष्ट सोमहिं पीवते ।

कइ भांति के जो अन्न उनको घृष्टि से उपजावते ॥ ५ ॥ ३५६ ॥

ऋत्विगत्था यजमान लोगों । तुम्हारे हित के लिये ।

उस भक्तहितकारी बलाधिप इन्द्र की स्तुति गात हूँ ॥

जो सकल रिपु संहारता, नायक, गखों में स्थित रहै ।

औं अखिल विश्वहिं जासु धन ऐसा गुणी वह देव है ॥ ६ ॥ ३५७ ॥

जयशील घोटकरूपधारी वेग को जो धारता ।

श्री दधिक्रावा अरिन की स्तुति में भलीविधि गावता ॥

वह हमारे मुख आदि इन्द्रियवर्ग को बलयुत करै ॥

और हमरी आयुओं की वृद्धि सब विधि आचरै ॥ ७ ॥ ३५८ ॥

अथाऽष्टम्याः जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

३ २ ३ १२ २ ३ १२ २
पुरां भिन्दुयुना कविरमितौजा अजायत ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ ८ ॥ ३५६ ॥

इति प्रथमः खण्डः ।

अथ द्वितीयः खण्डः ।

०

तत्र प्रथमायाः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
म म बलिष्टुभमिषं वन्दद्द्वीरायेन्द्रवे ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
धिया षो मेधसातये पुरन्ध्या विदासति ॥ १ ॥ ३६० ॥

अथ द्वितीयायाः वामदेवऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
ऋश्यपस्य स्वविदो यावाहुः सयुजाविति ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
यथोर्विश्वपवित्रतं यज्ञं धीरा निचारय ॥ २ ॥ ३६१ ॥

तह इन्द्र शत्रु-प्रमूह की नगरालि का भेत्तार है ।

अतत तरुणतायुक्त औ सत्काव्य का कर्तार है ॥

अत्यन्त बलसम्पन्न सब कर्मादि को निर्वाहता ।

यष्टार्थ वज्रायुध तथा पद्भुस्तुत्य हो प्रकटित हुआ ॥ ८ ॥ ३५६ ॥

चतुर्थाध्याय का प्रथमखण्ड समाप्त ।

द्वितीय खण्ड का आरम्भ ।

अध्वर्युओ ! तुम तीन स्तोत्रों सहित श्री यज्ञान्न को ।

श्री वीरगण के प्रशंसक इन्द्रार्थ भल पहुंचाइयो ॥

औ इन्द्र वह तुमको मखों की पूर्ति करने के लिये ।

श्री परम प्रज्ञायुक्त कर्मों से सपर्या आचरै ॥ १ ॥ ३६० ॥

श्री सर्वज्ञाता इन्द्र के जो अश्व के समुदाय हैं ।

जिन द्वयों का उपयोग सब मखकृत्य के प्रति होय है ॥

इस भांति निश्चय करत इक सँग योजना को पावते ।

० ० ० अश्वः स्वर्गं पावनहार ज्ञानी पुरुषगण वतलावते ॥ २ ॥ ३६१ ॥

अथ तृतीयांघाः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} अथ त माचंसा नः प्रियमेधसो अथ त ।

^{१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३} अचन्तु पुत्रका चत पुरमिच्छृण्वचत ॥ ३ ॥ ३६२ ॥

अथ चतुर्थीः मधुच्छन्दाऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} उक्थमिन्द्राय शशस्य वर्षनं पुरु निष्पिषे ।

^{३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} शक्रो यथा सुतेषु नो राशणत्सत्येषु च ॥ ४ ॥ ३६३ ॥

अथ पंचम्याः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ ३ १ २} विश्वानरस्य वस्पतिमना नतस्य शपसः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} एवंध चर्षणीनायूनी हुवे रथानाम् ॥ ५ ॥ ३६४ ॥

अथ षष्ठ्याः भारद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} स वा यस्ते दिशो नरो धिया मत्स्य शपसः ।

^{३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} जनी स वृष्टयो दिवो द्विषो अश्रहो न तरति ॥ ६ ॥ ३६५ ॥

हे कर्मनेताऽध्वर्यु लोगों ! इन्द्र की पूजा करो ।

शक्तिभाद से पूजो मखप्रिय जनों ! पूजन आवरो ॥

औ हे सुतों ! श्री अरुणन के अक्षि बांछित पूरता ।

अथ रिपुधंसी देव को पुनि पुनि सभी मिल पूजना ॥ ३ ॥ ३६२ ॥

अगणित-रिपु-क्षयकारि ऐसे इन्द्र के हित के लिये ।

श्री वृद्धि साधन तथा श्रीयुत मंत्ररूपी शस्त्र को ॥

श्री इन्द्र हमरे सुतों में औ मित्र के समुदाय में ।

जैसे बहुत रव करत त्यों श्रीप्रशंसा के चोर्य है ॥ ४ ॥ ३६३ ॥

सब शत्रुओं के वर्ग पै जो आफमण करता रहै ।

औ अमित्रों के यूथ से नमकर न कभि चलता रहै ॥

अस बलेश्वर श्रीयुत सुरेन्द्रहिं मरुसंज्ञक देवतों ।

तुम्हरे बलों के गमन युत रथ-प्राण बुलात हों ॥ ५ ॥ ३६४ ॥

घट्कर्म से निज शान्त पथ पै चलन वारे मर्त्य में ।

श्री दिव्य गुणयुत तुम्हारा स्तुति से सखा जो होत है ॥

वह मनुज जो तुम्हरी प्रकाश समेत रक्षा वाञ्छती ।

उस से अमित्रों को अघों के सरिस लौण सिधात है ॥ ६ ॥ ३६५ ॥

अथ सप्तम्याः अग्निशक्तिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{३ १२ ३ १२ ३ २ ३ १ २}
विभोष्ट इन्द्र राजसो विश्वी रातिः शतक्रतो ।

^{१ २ ३ १ २}
अथा नो विश्वचर्षणे वृश्नं सुदत्र मष्टं हय ॥ ७ ॥ ३६६ ॥

अथाऽष्टम्याः प्रहकृष्व ऋषिः । उषा देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २}
वयश्चित्ते पतन्निषो द्विपाचक्षुष्पादर्जुनि ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २}
उषा मारुतु रनु दिवो अन्तश्चरपरि ॥ ८ ॥ ३६७ ॥

अथ नवम्याः आप्त्यस्त्रिन ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
समी ये देवाः स्थन मध्य सारोचने दिवः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
ऊह ऋतं ऊहसृतं कामरुता व आहुतिः ॥ ९ ॥ ३६८ ॥

अथ दशम्याः सामदेव ऋषिः । ऋक्नामो देवते । अनुष्टुप् छन्दः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
ऋचंसाय यजागहे याभ्यां कर्माणि कृषते ।

^{१ २ २ ३ १ २}
विते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु हजतः ॥ १० ॥ ३६९ ॥

इति द्वितीयः खण्डः ॥

अद्भुत पराक्रम युक्त श्रियुत इन्द्रनामक देवता ।
सम्पन्न तेरा वितदान अतीव महिमा पावता ॥
भक्त एव सप्त संसार के द्रष्टा सुमङ्गल देवने ।
हम सभी लोगों को धनों का दान तुम दे दीजिये ॥ ७ ॥ ३६६ ॥
हे शुभ रँग वाली उषा ! तुव विशद प्रसरण के हुए ।
सो पाँव वाले मनुज, चौपाये गऊ आश्वादि जे ॥
मुनि पक्षधारी विहग भी आकाश के प्रान्तों विषे ।
जो ऊपरिवर्ती भाग तहँ खच्छन्द उड़ते जावते ॥ ८ ॥ ३६७ ॥
इन्द्रादि देवों ! जो यहै तुम दीप्त रवि के राजते ।
श्री गगन में हो अख तुम्हारा स्तोत्रविषयक सच कहौ ॥
अनृत कहां औ तुम्हारी प्राचीन आहुति है कहां ।
तुव दान क्या हुआ होत अनुभव तुम्हें हव्य नहीं मिला ॥ ९ ॥ ३६८ ॥
होता तथा उद्गातृजन जिन ऋक् तथा श्री साम से ।
स्तोत्रादि पदनुष्ठान नाना भौति के निर्वाह ते ।
उस ऋक् तथा श्री साम की पूजा सभी हम आचरें ।
ये सभा में स्तुतिरूप से सुरगणादि हवि पहुँचास हैं ॥ १० ॥ ३६९ ॥
इति द्वितीय खण्ड ।

अथ तृतीया ऋत्विः ॥

—:०:—

तत्र प्रथमाद्याः रेभ ऋत्विः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ।

^{२ ३ ११} विष्वाः पूतना ^{३ १२३ १२} अभिभूतरं नरः ^{३ १ २ ३ १ २} सजुस्वतञ्जुरिन्द्रं ^{३ १ २ ३ १ २} जजनुश्च राजते ।

^{३ १ २ ३ २} क्रश्च ^{३ १ २ ३ १ २} धरे स्थे मन्थासुरीमुतोग्रगोजिष्ठं ^{२५ २१ २ ३ १} तरसं तरस्विदन् ॥ १ ॥ ३७० ॥

अथ द्वितीयाद्याः सुवेदः शैलूपिर्ऋत्विः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ।

^{१ २} अत्ते ^१ दधामि ^{३ १ २ ३ २४ ३ २३ ३ १ २ ३ २ ३ २} प्रथमाय दन्वनेऽहन्यदस्यु नये । ववरपः ।

^{२२५ ३ १ २ ३ १} उभे यत्वा ^{३ २ ३ १ २ ३} रोदसी ^३ य वतामनुभ्यतात्ते ^{३ १ २} गुष्पात्सृषिषी चिदद्रिवः ॥२॥३७१॥

अथ तृतीय खण्ड ॥

अतिविस्तृत आक्रमणकारि सेना इकमत हुई ।

रिपुधर्षक जो इन्द्र उसे सायुध कर देवधि ॥

औ स्तोता निज तेज हेतु रभिरूप इन्द्र को ।

स्तोत्र आदि से निज मख में प्रफटित करते हुए ॥

तथा घृत्र को मारने श्रेष्ठ स्थिरासन पै टिके ।

अरिसूदन अत्युग्र शुचि पत्नी इन्द्र तिर्हि पूजते ॥ १ ॥ ३७० ॥

वज्रायुध ! तुव मुख्य क्रोध की श्रद्धा करता ।

जिससे कर्म विघातकारि राक्षस वध फीन्हा ॥

करि निःशेष पयोदवर्ग से आच्छादित जज्ञ ।

उनको हस लोक के मध्य भल्लिविधि पहुँचा दिव ॥

औ धरणी आकाश दोष जब तुव वक्ष में आवते ।

अन्तरिक्ष विस्तीर्ण भी तब तुव भययुत होत है ॥ २ ॥ ३७१ ॥

अथ षष्ठ्याः कृष्ण आङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अच्छा व इन्द्रं मतगः स्वयुवः मधीवीश्विवा वशनीरनूपन ।
१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
परिस्वजन्त जनया यथा पति मयं न शान्धुं मघवानमूतये ॥ ६ ॥३७५॥

अथ सप्तम्याः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ १ २ ३ २
अभित्यं मेपं पुरुहूतमृग्मियामन्द्र गीर्भिमदता वस्त्रो अर्णवम् ।
३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मध्यादिष्टमभिविप्रवर्चत ॥ ७ ॥३७६॥

अथाऽष्टम्याः ऋष्यादिकं पूर्ववत् ।

२ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
त्यथ सुमेपं महया स्वविदथं शतं यस्य सुभुवः साकमीरते ।
३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अत्यन्न वाजथे हवनस्यदथे रथमेन्द्रं वदत्पामवसे सुवृक्तिभिः ॥ ८ ॥३७७॥

जैसे स्त्रियाँ नररूप पति को और जैसे शुद्ध हो ।
अस धनाधिप को आपके त्राणार्थ आच्छिन्न करें ॥
उस रीति से स्वलोकगामिनि इकट्ठी फैलाति हुई ।
इच्छा करति स्तुतियाँ महेश्वर को चहूँ दिशि गावती ॥ ६ ॥ ३७५ ॥

प्रथित तथा रिपुवर्ग सेति स्पर्धा को धारत ।
यजमानों के घृन्द सेति आमंत्रण पावत ॥
भी स्तुतियों से स्तुत्य धनाधिप इन्द्रदेव को ।
स्ताताभों ! स्तुति से सम्मुख होकर के तोषो ॥
जिसके जनताहित करम जग सुखप्रद रविकिरणसम ।
अति विचरत भोगार्थ तिहिं शानीद्रहिं भल पूजियत ॥ ७ ॥ ३७६ ॥

जिस के उत्तम भूमिवर्ग इक साथ सिधावत ।
ऐसा वह जो शत्रु यूथ से स्पर्धा धारत ॥
धनदाता रथ तुल्य यथेप्सित स्थान दिजावत ।
यात्रासाधन अथ सरिस मस्त्रस्थल पदुंजावत ॥
ऐसे इन्द्रहि त्राण-हित उत्तम स्तुति से पूजना ।
तथा एकसौ बार मैं परिक्रमा से देवता ॥ ८ ॥ ३७७ ॥

अथ नवस्याः अरुद्राज ऋषिः । रौद्रस्यो देवते । जगती छन्दः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
घृतवती भुवनानामाभिर्भिरासी पृथ्वी मधुदुग्धे सुपेशसा ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मसा विष्णुभित्तौ अजरेशुरिरेतसा ॥ ९ ॥ ३७८ ।

अथ दशस्याः भेजातिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । महापंक्तिश्छन्दः ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
सभे यदिन्द्रोदसी आपमाधोपा इव ।

३ १ २ ३ १ २ २ १ २ ३ २
महान्तं त्वा महीनाथं सन्नानं चर्षणीनाम् ॥

३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २
देवी जानत्र्यजीजनद्द्रा जनित्र्यजीजनत् ॥ १० ॥ ३७९ ॥

अथैकादश्याः कत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
म मन्दिने पितृषुर्देवता पत्नी यः कृष्णगर्भा निरहृजिष्वना ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अवस्यसो वृषणं वज्रक्षिणं वरुत्वन्तं सरुपाय हुवेमहि ॥ ११ ॥ ३८० ॥

इति तृतीय खण्डः ।

दिवलोक धरणीलोक जल के जन्तुओं को ठामते ।

विस्तीर्णं कार्यस्वरूप विश्रुत जलहिं पूर्णं घनावते ॥

सुन्दर जगत्पति शक्ति द्वारा धारणे से ठैरते ।

श्री नित्यतासम्पन्न नाना धीज वाले होवते ॥ ९ ॥ ३७८ ॥

इन्द्र ! धराणि आकाश दुःख को उपा प्रपूरत ।

त्यो निज द्युति से आप सकल जग को भरदेयत ॥

ऐसे महिमायुक्त देव अरु नरगणनायक ।

इन्द्रदेव ! श्री अदिति देवि ने जन्म तोय दिव ॥

ऐसे सुत को प्रकट किये इस कारण से ही अदिति ।

सकल सुमंगलकीरणी मातृवृन्द में अदिति शुचि ॥ १० ॥ ३७९ ॥

ऋत्विग्लोको ! स्तोत्र-योग्य सुरराज प्रीति हित ।

हविस्वरूप श्री अन्नसहित स्तुति को भल माइय ॥

जिसने अपने साथ ऋजिष्वाभिध को लेकर ।

कृष्णाऽसुर को गर्भवती स्त्री गणयुत मारिय ॥

रक्षार्थी हस सिद्धिप्रद वज्रधारि सुरनाथ को ।

मित्र तुल्य उपकार को करन हेतु बुलवात हैं ॥ ११ ॥ ३८० ॥

इति तृतीय खण्ड ॥

अथ चतुर्थः खण्डः ।

*

तत्र प्रथमायाः नारद ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}
इन्द्रं सुतेपु सोमपु क्रतुं पुनीप उवथसम् ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
विदे वृषरथ दत्तस्य महामहिषः ॥ १ ॥ ३८१ ॥

अथ द्वितीयायाः गोपूतयशस्वस्तिनावृषी । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ॥

^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २}
तस्य अभिप्रगायत पुरुहूतं पुरुपुतम् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}
इन्द्रं गीभिस्तपिषमाविवासत ॥ २ ॥ ३८२ ॥

अथ तृतीयायाः ऋष्याद्याः पूर्वपत् ॥

^{३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}
तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृच्छु सासहिम् ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
ए लोक्कृन्नुषद्विवो हरिश्रियम् ॥ ३ ॥ ३८३ ॥

चतुर्थ खण्ड का आरम्भ ।

हे इन्द्र ! श्रीयुत सोमरस भलिभांति प्रकटित होवते ।

तव चन्हें पीकर वृद्धिकारक बल प्राप्ति करावने ।

श्री कर्म का कर्तार स्तोता को-भि शुद्ध बनावते ।

वह तुम अवश्यहि महामहिमा युक्त पद को पावते ॥ १ ॥ ३८१ ॥

स्तोताजनों ! जो इन्द्र बहुतों से बुलाया जात है ।

औ विविध जनसमुदाय जिस की गुणावलि को गात हैं ।

उस इन्द्र की अभिमुख हुए तुम निरन्तर स्तुति गावना ।

श्रीमहामहिमा युक्त उसको स्तोत्र सेति मनावना ॥ २ ॥ ३८२ ॥

हे वस्तुधारी देव ! तेरा वह मनोरथ साधना ।

नाना रणों के मध्य शत्रुसमूह को विनसावना ।

श्री लोके का कर्ता तथा हरिसंज्ञ घोटक सेव्य जो ।

अस्य सोम द्वारा प्रकट हर्ष कि बहुत ही स्तुति गावते ॥ ३ ॥ ३८३ ॥

अथ चतुर्थ्याः पर्वत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ॥

^{१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २}
यत्सोममिन्द्रं विष्णुवि यद्वा घ श्रित आप्त्यै ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २}
यद्वा मरुसु मन्दत समिन्दुभिः ॥ ४ ॥ ३८४ ॥

अथ पंचम्याः विश्वमना वैश्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ २ २}
एदु मघोर्मदिन्द्ररथे सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः ।

^{३ २ ३ ३ १ २ २ २ १ २}
एवाहि वीरः स्तपते सदाष्टयः ॥ ५ ॥ ३८५ ॥

अथ षष्ठ्या ऋष्यादयः पूर्ववत् ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २}
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति साम्यं मधु ।

^{१ २ २ ३ १}
मराधाथेसि चोदयते महिस्वना ॥ ६ ॥ ३८६ ॥

इन्द्र ! विष्णु के सोमपान हित आगम करते ।
अन्य याग में यद्यपि सोमरस तुम पी जाते ॥
और आप्त्य सुत त्रितमख में श्री सोमहिं पीते ।
तथा मरुद्रण के सोमार्थ शुभागम करते ॥
यद्यपि अन्य के यज्ञ में सोमपान कर सुख लहो ।
तोभि हमारहि यज्ञ में दिव्य सोमपी सुखि रहो ॥ ४ ॥ ३८४ ॥

अध्वर्यु ! गीठा और अत्यानन्द का दातार जो ।
अस सोम को ही इन्द्र के पीने लिये टपकाह्यो ॥
जो वीरतासम्पन्न अंतत हव्य से बढजावता ।
अस इन्द्र ही स्तोत्रादि द्वारा स्तुत्य पद को पावता ॥ ५ ॥ ३८५ ॥

हे ऋषिजो ! इन्द्रार्थ सोमहिं प्रीतिपूर्वक सौचियो ।
पुनि सोमस्य मद्कारि रस का पान सुरपति कीजियो ॥
उपरान्त वह निजशक्ति से जो स्तोत्र को गाया करें ।
उसको विविध घन धान्य सुख आधिक्य से देता रहै ॥ ६ ॥ ३८६ ॥

(१२३)

अथ असम्याः ऋष्यादिकस्तुतयत् ।

^{१ २ ३} २ ३ ^{१ २ ३} १ २ ३ ^{२ ३ १ २}
पतोन्दिन्द्रो स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम् ।

^{३ १ २} २ ३ ^{३ १ २} ३ १
कुषीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत् ॥ ७ ॥ ३८७ ॥

अथाऽष्टम्याः नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

^{१ २ ३} १ २ ^{३ १ २} ३ २ ३ २
इन्दाय साम गायत विमाय बृहते बृहत् ।

^{३ १ २} ३ १ २ ^{३ १ २} ३ १ २
ब्रह्मकृते विपदिने पनस्यवे ॥ ८ ॥ ३८८ ॥

अथ नवम्याः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

^{२ ३} ३ २ ^{३ १ २ ३} २ ३ ^{१ २} ३ १ २
य एक इद्दिदयते वसु मर्ताय दाशुपे ।

^{१ २ ३} २ ३ ^{३ १ २} ३ २
ईशानो यमतिष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥ ९ ॥ ३८९ ॥

श्रीमिश्र सम ऋत्विग्जनो ! तुम शीघ्रसायुत आइये ।

स्तोमार्ह नेता उस सुरेश्वर की गुणावलि गाइ है ॥

जो इन्द्रसंज्ञक देवता इकलाहिं सब विपुसैन्य को ।

सब भांति सेती नष्टभष्ट बनावतो वा जीततो ॥ ७ ॥ ३८७ ॥

उष्णात् लोगो ! महामेधायुक्त मदिमा धारता ।

श्री वृष्टि द्वारा हव्य के लिय अन्न को उपजायता ॥

श्री ज्ञानयुक्त औ मंत्र द्वारा विविध स्तुति जो चाहता ।

अस इन्द्र के लिय बृहत्सामाभिधस्तवों को गावता ॥ ८ ॥ ३८८ ॥

जो इन्द्र इकला देव ही श्री हव्यप्रद यजमान को ।

धन-धान्य आदि समृद्धियां भलिभांति से दे देवतो ॥

प्रतिकूल शब्दों से रहित वह इन्द्रसंज्ञक देवता ।

श्रीमिश्र सम संसार भर का-अधीश्वर हो जावता ॥ ९ ॥ ३८९ ॥

(१२४)

अथ दशम्याः विश्वसना ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

१ २३ १२ ३ १ २२ ३ ३ ३ २
सखाय आशिपामहे मन्त्रेन्द्राय यजिषे ।

३२ ३२ ३ १२ ३ १२
स्तुम ऊषु पां नृतसाय धृष्यन्वे ॥ १० ॥ ३६० ॥

इति चतुर्थः खण्डः ।

अथ चतुर्थाऽध्याये पंचमः खण्डः ।

तत्र प्रथमायाः प्रसाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

३१२ २२ ३ १२ ३ २ ३ १ २
गुणे तदिन्द्र ते शव उपशां देवतातये ।

१२ २२ ३ १२ २२
यद्दशसि वृत्रभोजसा शचीपते ॥ १ ॥ ३६१ ॥

अथ द्वितीयायाः भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

२ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन् ।

३१२ २२ ३ १२ २२
अथ स सोम इन्द्र ते तुमः पिव ॥ २ ॥ ३६२ ॥

हे मित्र ऋत्विग्जनो ! वज्रायुध सुरेश्वर देवता ।

उसके लिये श्री श्रुतिविहित मंत्रावली हम गावते ॥

श्री सर्वनेता तथा रिपुभयदाह इन्द्र तु देवता ।

तुम सर्वों के कल्याण के लिय मैं उसी को गावता ॥ १० ३६० ॥

चतुर्थ खण्ड समाप्त ।

अथ पंचम आरम्भ ।

हे इन्द्रदेव ! तिहार बल अत्यन्त ही विख्यात है ।

सिस के निकट यजमान वा यज्ञार्थ मैं स्तुति गात हूँ ॥

कारण शचीपति देव ! तुमने वृत्रनामक असुर को ।

अपने पराक्रम योग द्वारा पराजित करते रहो ॥ १ ॥ ३६१ ॥

* हे इन्द्र तुम जिस सोमरस के पान से हर्षावते ।

उस शम्भराऽसुर को दिवोदासार्थ मार हटावते ॥

वह दिव्यगुणयुक्त सोम तेरे पान करने के लिये ।

अभिपुत्र किया प्रस्तुत धरा तिहि पान तुम कर लीजिये ॥ २ ॥ ३६२ ॥

* यहाँ कह्यों का यह मत है कि श्रीसायणाचार्य ने दिवोदास नाम राजा का उल्लेख किया है जिससे किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किन्तु "दिवः स्वर्गस्य दासः दिवोदासः" अर्थात् जो स्वर्ग प्राप्ति के कामों की रक्षि रखता हो ॥

(१२६)

अथ षष्ठ्याः विश्वमना ऋषिः । आदित्यो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

^{२ ३ १२ २२ ३ १ ३ १ २}
वेत्था हि निर्मृतीनां वज्रहस्त परिवृजम् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २}
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६ ॥ ३६६ ॥

अथ सप्तम्या हरिर्निष्ठ ऋषिः । आदित्यो देवता । उष्णिक् छन्दः ।

^{१२ २२ ३२ ३ २ ३ १ २ ३ २}
अपापीनामपस्त्रिधमपसेषत दुर्मतिम् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
आदित्यासौ युपोतना नो अंशहस्ता ॥ ७ ॥ ३६७ ॥

अथाऽष्टम्याः अस्त्रिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । चिराद् छन्दः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
पिषास सोमिन्द्र मन्दतु त्वाऽयं त्वे सुपादहर्षश्वादिः ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
सोतुर्वाहुर्भर्धां सुवतो नार्वा ॥ ८ ॥ ३६८ ॥

इति पंचमः खण्डः ।

वज्र धारि सुरनाथ । असुर जे विघ्न करव रहें ।
उनकी दूर हटानि क्रिया को आप लखत हैं ॥
उदाहरण व्यो नित्य दिनोदय वेला आवत ।
ज्ञाहाण आहिक कर्म निभाग विमलता पावत ॥
अस विशुद्धि के हेतु श्री रविहिं देखि विचरें विहग ।
त्यो सुरेश । तुव दल निरखि शत्रुनगर तज के भजत ॥ ६ ॥ ३६६ ॥
आदित्य देवो । रोग हमरे निकट से हटवाहये ।
वाधक आमित्रसमूह तिन्ह को दूर देश भगाहये ॥
हमरा अनिष्ट चहैं तिन्हें अत्यन्त दूर भगावना ।
औ हमें नाना पापगण से अलग राख एवारना ॥ ७ ॥ ३६७ ॥
हे इन्द्र ! सोमहिं पियो वह तुमको सुखप्रद हूजियो ।
हे देव ! तेरे ऐतु जिसने सोमरस प्रकटित कियो ॥
उसकी सुरज्जुन सेति जैसे अश्व भलि विधि वश हुआ ।
तैसे सहे पाषाण सोमहिं प्रकट करदेता भया ॥ ८ ॥ ३६८ ॥

पंचम खण्ड समाप्त ।

अथ षष्ठः खण्डः ॥

—:०:—

तत्र प्रथमायाः सौभरिकर्षिः । इन्द्रो देवता । ककुप् छन्दः ।

^{३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २}
अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि ।

^{३ १ २ ३ १ २}
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ ३६६ ॥

अथ द्वितीयायाः सौभरिकर्षिः । इन्द्रो देवता । ककुप् छन्दः ।

^{१ २ ३ १ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २}
यो न इदंमिदं पुरा मवस्य भानिनायतमुवस्तुषे ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २}
सखाय इन्द्रमृतये ॥ २ ॥ ४०० ॥

अथ तृतीयायाः सौभरिकर्षिः । मरुतो देवता । ककुप् छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
आगन्ता मारिपण्यत मरुथावानो मापस्थात समन्यवः ।

^{३ १ २}
दृळाचिद्यमयिण्यवः ॥ ३ ॥ ४०१ ॥

अथ षष्ठ खण्ड का आरम्भ ।

हे इन्द्र ! तुम प्रकटे तभी से शत्रुवर्ग-विहीन हो ।

अयंश्रित चिरकाल से औ वन्धुवृन्द विहीन हो ॥

पुनि जिस समय किसि वन्धु जनकी आप रुचि को धारते ।

तत्र युद्ध करते स्तुति करें उनके सखा वनजावते ॥ १ ॥ ३६६ ॥

हे मित्र याज्ञिक जनो ! जो श्रीयुत सुरेश्वर देवता ।

पहले हि इस उत्तम धनहिं हम को बहुत देता रहा ॥

उसही विभव के लान वारे इन्द्रसंज्ञक देव को ।

तुमको विभवयुत सुरक्षा भी मिलै इस सम नावतो ॥ २ ॥ ४०० ॥

हे शत्रु पै आक्रमणकारी मरुत आप पधारियो ।

औ नहीं आने भेति हम को हानि मत पहुंचाइयो ॥

हे तुल्य तेजोराशि ! दृढ गिरि प्रभृति को नश राखने ।

ऐसे मरुत्समुदाय ! हमको त्याग कहिं मत जाइये ॥ ३ ॥ ४०१ ॥

(१२८)

अथ चतुर्थ्याः सौभरिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप् छन्दः ।

५ २ ३२३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
आय ह्यपमिन्द्रये श्वपतेऽगोपत उर्ध्वरापते ।

१ २
सामंथं सोषपते पिव ॥ ४ ॥ ४०२ ॥

अथ पंचम्या ऋष्याद्याः पूर्ववत् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
त्वया एस्विद्युजा वयं प्रातिश्वसन्तं वृषभ व्रुवीमहि ।

३ १ २ २ ३ १ २
संस्थे जनस्य गोसतः ॥ ५ ॥ ४०३ ॥

अथ षष्ठ्याः सौभरिर्ऋषिः । मरुतो देवता । ककुप् छन्दः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
गावश्चिद् घासमन्यवः सजात्येन मरुतः सवन्धवः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
रिहते ककुभो मिथः ॥ ६ ॥ ४०४ ॥

अथ सप्तम्याः नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप् छन्दः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
त्वं न इन्द्राभर षोडो नृमणंथं शतक्रतो विचर्षणे ।

३ १ २ ३ १ २
आवीरं पृतनासहम् ॥ ७ ॥ ४०५ ॥

हे अश्वपति ! हे धेनुपति ! हे हरितवर्ण धरापते ।

श्री दीप्तिनिधि तुम्हारे लिये ये सोमरस प्रस्तुत धरे ॥

तुम कृपा करके हमारे मख में पदार्पण कीजिये ।

श्री सोमपति ! यह सोमरस रक्खा जिसे पी लीजिये ॥ ४ ॥ ४०२ ॥

श्री सिद्धिप्रद ! गोधनि भगत के स्थान वा संग्राम में ।

हमारे उपरि अतिक्रोध-वश रिपु होय ऊँचे श्वास लें ॥

उन को तुम्हारी सहायता से ही समुत्तर देसकें ।

तात्पर्य तेरी कृपा से शरिगणहिं दूर हटाय-दें ॥ ५ ॥ ४०३ ॥

हे तुल्य दीप्तिनिधान ! ऐसे मरुतसंज्ञक देवता !

तुम्हारी जननि रूपिणि गवैभी तुल्य जातिय होन से ॥

समबन्धु वाली होवतीं पूर्वादि दिश को पाय के ।

इक दूसरी को परस्पर में चाटने लग जाति हैं ॥ ६ ॥ ४०४ ॥

हे विविध बलयुत ! इन्द्र ! अगणित दृष्टि वाले देवता ।

श्री पराक्रम शौ ऋद्धि तुम हम सबों को दे देवता ॥

पौरुष सहिय तुम शत्रुओं के दलों को धमकावते ।

ऐसे तुम्हें हम सभी याज्ञिक वृन्द मिल-बुलवावते ॥ ७ ॥ ४०५ ॥

अथाऽष्टम्या ऋष्याया उक्ताः ।

अथा ऋषिन्द्र गिद्यः उप त्वा काम ह्यष्ट समृग्महे ।

उदेवगन्त उदभिः ॥ ८ ॥ ४०६ ॥

अथ नवम्याः सौभरिकेदिः । इन्द्रो देवता । ककुप् छन्दः ।

सीदन्तस्ते वयो यथा गाश्रीते मथो गदिरै विवन्तणे ।

अभि त्वाभिन्द्र नोनुगः ॥ ९ ॥ ४०७ ॥

अथ दशम्या ऋष्यादिकमुक्तम् ।

वयम् त्वापपूर्व्यं श्रुं न कश्चिद्भरन्तोऽवस्यदः ।

वानिञ्चित्रं ह्यपरे ॥ १० ॥ ४०८ ॥

इति षष्ठः खण्डः ।

श्री स्तोत्र द्वारा पूज्य ऐसे इन्द्रसंज्ञक देवता ।

अथ कर्त्तार्या तुर पासणा तीयरनां प्र से संयुत करे ॥

दृष्टान्त जैसे सलिचधारी पुण्य नीर उछालना ।

अंजःलिन से कीड़ा दिवश निकटस्थ नरहिं भिजांवता ॥ ८ ॥ ४०६ ॥

हे इन्द्र ! गौ के दुग्ध णक घृत से मिले सुख देवने ।

धी स्वर्गदाता तुम्हारे रस पास एकप्रित हुए ॥

श्री पक्षियों के वर्ग सम हम तुम्हारे जाभिमुन्न हुए ।

अत्यन्त श्रद्धा भक्ति से पुनि पुनि प्रणति करते रहे ॥ ९ ॥ ४०७ ॥

श्री वज्रधारि नयेन्द्र ! धी सोमाज से तीय पाजते ।

नानास्वरूपी आप को हि रक्षार्थ हम चहते हुए ॥

ध्यों आठिगुणी कोई स्वगृह को अन्न सेती पूरता ।

किसी पुरुष को बुजवात त्यों हम आपको बुजवावते ॥ १० ॥ ४०८ ॥

षष्ठ खण्ड समाप्त हुआ ।

अथ सप्तमः खण्डः ॥

तत्र प्रथमाया गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पंक्तिरंछदः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
स्वाक्षोरित्था विपुवतो मधोः पिवन्ति गौर्यः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
या इन्द्रेण सयावरी वृष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ १ ॥ ४०६

अथ द्वितीयाया ऋष्यादय उक्ताः ।

^{३ २ ३ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
एत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वधनम् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
शबिष्ठ वज्रिगोजसा पृथिव्या निःशशा अधिमर्चन्तु स्वराज्यम् ॥ २ ॥ ४१०

अथ तृतीयाया अपि ऋष्यादिकमुक्तवत् ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २}
इन्द्रो मत्वाय वावृषे शवसे वृषहा नृभिः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २}
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमम हवामहे स वाजेषु मनोऽबिषत् ॥ ३ ॥ ४११ ॥

अथ सप्तम खण्ड का आरम्भ ।

श्री रसयुत इस भाँति सकल गख का उपकारक ।
अस प्रिय सोमहिं श्वेत वर्ण की गायें पीवत ॥
जो गायें सुखदाइ इन्द्र के सँग में जावतिं ।
तुष्ट होवतीं हुई अधिक शोभा को पावतिं ।
श्रीयुत पय को देवतीं भलीभाँति वसती हुई ।
वे गायें निज स्वाभि के राज्य विपें स्थिति को करति ॥ १ ॥ ४०६ ॥
वज्रधारि बलयुक्त इन्द्र ! यों शास्त्रीति से ।
तेरे सोमहिं प्रहृण करत स्तुति को आचरते ॥
तुव वर्द्धक श्री वेद विहित स्तुति को उच्चारत ।
इसी हेतु निज राज्य बीच तुम स्वाम्य जनावत ॥
बल के द्वारा धरणि से वृत्र नाम के असुर को ।
पूर्णरूप से शासते मारि जगत से काढ़ दो ॥ २ ॥ ४१० ॥
हे वृत्रनाशक इन्द्र ! सुख व पराक्रम को पावने ।
श्रीयाज्ञिकों के स्तोत्र द्वारा महोजति को धारते ।
तिसि इन्द्र को भारी समर औ लुद्र से संप्राम में ।
रक्षार्थ तुलवायें वहे हम को रणों में शान्ति हैं ॥ ३ ॥ ४११ ॥

(१३१)

अथ चतुर्थ्या ऋष्यादय उक्ताः ।

^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुचं षज्जिन्वीर्यम् ।

^{२ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २}
अद्भ्य त्वं मायिनं मृगं तव त्वन्मायया वधीरचनतु स्वराज्यम् ॥ ४ ॥ ४१२ ॥

अथ पंचम्या ऋष्यादय उक्ताः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २}
प्रेषमीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते ।

^{१ २ ३ २ ३ ३ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
इन्द्र वृष्णं हि ते शषो हनो वृत्रं जया अपीरचनतु स्वराज्यम् ॥ ५ ॥ ४१३ ॥

अथ षष्ठ्याः ऋष्यादय उक्ताः ।

^{२ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
* यदुदीरित आजयो धृष्णवे धीयते धनम् ।

^{२ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २}
युद्धा मदच्युता हरी क इना क वसो दधो स्मा इन्द्र वसो दधः ॥ ६ ॥ ४१४ ॥

हे मेघनाहन वज्रधारी ! इन्द्रसंज्ञक देवता !

तेरा हि बल रिपुवर्ग से नहीं पराजित होता रहा ॥

जिस शौर्य से निश्चय स्वराज्य विषे महत्त्व दिखावते ।

उस मायि हरिण-स्वरूपि वृत्रहि युक्ति से तुमने हना ॥ ४ ॥ ४१२ ॥

इन्द्र ! प्रकर्ष समेत आक्रमण को कर दीजिय ।

अभिमुख आ हन्तव्य शत्रु तिस्रको गह लीजिय ॥

धनको अवनत किये तुम्हारा यज्ञ न रुकता ।

तुम्हारा बल सब मनुजवर्ग को नष्ट बनाता ॥

इसी हेतु निज राज्य में निज गौरव दरसावते ।

वृत्रासुर को मार पुनि दह जलों को जीतिये ॥ ५ ॥ ४१३ ॥

जब रण छिड़ते तभी रिपुन को जो जीतते है ।

उस जेता के लिये द्रव्य स्थापन होवत है ॥

इन्द्र ! असे संग्राम होय तब रिपुमदनाशक ।

आश्व जोड़ि किस देव द्रोहि नरपति को मारिय ॥

औ जो तेरा भक्त हो उस तृप में धन को धरो ।

इसी हेतु तुव भक्त हम भूप उन्हीं में धन रखो ॥ ६ ॥ ४१४ ॥

* रहस्य का पुत्र गोतम कुरुसृजय राजा का पुरोहित था, उन राजाओं का शत्रुओं के साथ युद्ध होने पर गोतम ऋषि ने इस सूक्त से इन्द्र की स्तुति करके अपने यजमानों के लिये विजय प्रार्थना की थी ।

अथ लक्ष्म्या ऋष्यादयोऽयुक्तवत् ।

^{२ ३ १ २} ^{३ १ २ ३ १ २}
अक्षयमीदन्त एवमिषा अधुपत ।

^{१ २} ^२ ^{३ २ ३ १ २} ^{३ २ ३} ^{क २ २ ३ १ २}
शास्तोपत स्वाभानवो विमा नविष्टया मती योजान्विन्द्र ते हरी ॥ ७ ॥ ४१५ ॥

अथाछन्द्याः ऋष्यादय उक्ताः ।

^{३ १ २ ३ २ ३} ^{३ १ २ ३ १ २}
उपोपु शृणुही गिरौ मघवन्मातथा इव ।

^{३ १ २} ^{३ १ २ ३} ^{२ ३ २ ३ १ २ ३} ^{२ ३ क २ २} ^{३ १ २}
कदा नः सूनृतापतः कर इदर्थयास ईद्योजान्विन्द्र ते हरी ॥ ८ ॥ ४१६ ॥

अथ नक्षत्राः त्रितन्त्रादिः । चिम्बेदेवाः देवताः । पांक्तिरछन्दः ।

^{३ १ २ ३ २} ^{१ २ २ ३ १ २} ^{३ १ २}
चन्द्रमा अपस्वऽन्तरा सुपर्णो धावते दिवि ।

^{१ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २ ३ १ २}
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो चित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ९ ॥ ४१७ ॥

हे इन्द्र ! यथा तिहारे ही अन्न खा तर्पित हुए ।

सुस्वाद लेकर कथन में असमर्थ शिर कम्पित किये ॥

पुनि तेज से भास्वर विवेकी यज्ञकर्त्ता-वर्ग ने ।

श्री नव्य स्तुति गाई अतः द्रुतस्वाम्बरथ सँग जोड़िये ॥ ७ ॥ ४१५ ॥

हे इन्द्र ! निकट पधारि स्तुतियाँ भलीविधि सुन लीजिये ।

औ प्रथम करते थे कृपा उससे विमुख मत हूजिये ॥

पुनि हमें प्रिय सचवाणि से युत किस समय करदेह हैं ।

स्तुति मानते हो अतः निज हय तुरत रथ से जाड़िये ॥ ८ ॥ ४१६ ॥

* गगन बीच जलमण्डल तहँ स्थिति को भल पावत ।

सुपुण्यासंज्ञक सूर्य फिरणयुत शशिदुत धावत ॥

ऐसी चान्द्रीदित तथैव शुचि प्रांतों वाली ।

विशदफिरण ! तुव चरण अग्र को मम इन्द्रियगण ॥

कृपाच्छादित होन से पाने में असमर्थ हैं ।

अतः धरणि आकाश ! मोय काढि स्तोत्र मम जानिये ॥ ९ ॥ ४१७ ॥

* कितनेक लोग इसका यह तात्पर्य बताते हैं कि चन्द्रमा में जो प्रकाश है, वह सूर्य का है, परन्तु यह भेद इतना गूढ़ है कि जिसको समझना बड़ा कठिन है, इसलिये यह जीवात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे आवापृथिवी के अधिष्ठाता देव ! जिस प्रकार ठफे हुए कूप का भेद कोई नहीं बता सका उसी प्रकार मेरी आवरणयुत बुद्धि इस के मर्म को नहीं पासकी, सो मुझ पर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हृदय में प्रकाश होजाय और ऐसे शुद्ध विषयों को मैं भली-भाँति समझ लूँ यही मेरी प्रार्थना है ॥

(१३३)

अथ दशम्या अवस्पृष्टपिः । अश्विनी देवते । पंक्तिश्छन्दः ॥

^{१ २} प्रति मियत्तमं ^{३ १ २ ३} रथं ^{२ ३ १ २} वृषणं ^{३ १ २} पसुं ^{३ १ २} पाद्वपुः ।

^{३ १ २} स्तोता ^{३ २ ३} वामश्विना ^{१ २} वृषिः ^{३ २ ३ २} स्तोत्रेभिर्धूपति ^{३ १ २} प्रतिवाध्वी ^{३ १ २} समश्नुतं ^{३ १ २} हवतु ॥ १० ॥ ४१८ ॥

इति सप्तमः खण्डः ।

अथाष्टमः खण्डः ॥

—:—

तत्र प्रथमायाः वस्तुश्रुतप्रदपिः । अग्निर्देवता । पंक्तिश्छन्दः ॥

^{१ २} आ ते ^{३ १ २} अग्न इधीमहि ^{३ १ २} द्युमन्तं ^{३ १ २} देवाजरसु ।

^{३ १ २} यद्वा ^{३ २ ३} स्वाते ^{३ १ २} पनीयसी ^{३ २ ३} सपिद्दीदयति ^{३ १ २} अवीपं ^{३ १ २} स्तोतृभ्य आभर ॥ १ ॥ ४१९ ॥

अथ द्वितीयाया विषदक्षपिः । अग्निर्देवता । पंक्तिश्छन्दः ॥

^{१ २} अग्निं न ^{२ ३} स्ववृक्किभिर्होतारं ^{३ १ २} त्वा वृणीमहे ।

^{३ १ २} शीरं ^{३ २ ३} पावकशोचिपं ^{३ १ २} विषो मद्दे ^{३ १ २} घृतेपु ^{३ १ २} स्तीर्णवर्हिपं ^{३ १ २} विवक्षसे ॥ २ ॥ ४२० ॥

अधिनिकुमारो ! तुम्हारा रथ बहुत प्यारा लागता ।

अभिमत फलों को देत औ धन को उठा ले जावता ।

उस सुरथ को स्तुति सेति स्तोता भलीदिधि शोभित करें ।

इस हेतु मधुविद्या-विशारद ! चाप सब सुन लीजिये ॥ १० ॥ ४१८ ॥

सप्तम खण्ड समाप्त ।

अथ अष्टम खंड प्रारम्भ ॥

हे अग्नि ! कान्तिसमेत औ निर्जरपने को धारते ।

ऐसे तुम्हें सब भाँति हम ज्वाला-सहित करदेघते ॥

जब अवशि तुम्हरी स्तुत्य छवि वह लखति रह दिवलोफ में ।

हे देव ! हम स्तोताजनों को अन्न तुम दे दीजिये ॥ १ ॥ ४१९ ॥

अग्नि ! अभी निजकृत औ श्री निर्दोष स्तोत्र से ।

श्री सुरगुण बुलवानवार तुम मख कृत्यों में ॥

जिसके लिप श्री दर्भासन संपादित कर दिय ।

ऐसे औपध व्याप्त शुद्ध द्युतिसंयुत पावक ॥

तुम को सोम पिलाय कर बहुत हर्ष उपजावने ।

अभिमुख हो पूजा करें देव ! आप महामान्य हैं ॥ २ ॥ ४२० ॥

अथ तृतीयायाः सत्यश्रवा ऋषिः । उषा देवता । पंक्तिश्छन्दः ।

^{३१ २ ३१ २३ १ २ ३२ ३ १ २}
यहे नो अथ बोधयोषो राये दिदित्मती ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २२३ १ २}
यथाचिन्नो अर्बोधयः सत्यश्रवसि वाय्य सुजाते अश्वसूचते ॥ ३ ॥ ४

अथ चतुर्थ्याः विमदऋषिः । सोमो देवता । पंक्तिश्छन्दः ॥

^{३२२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २२}
भद्रं नो अपि वातय मना दक्षमुत्त क्रतुम् ।

^{१ २ ३ १ २ २२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २ २२ ३ १ २}
अथा ते सरुथे अन्धसो वि वो गदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥

अथ पंचम्याः गोतमऋषिः । इन्द्रो देवता । पंक्तिश्छन्दः ॥

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २२ ३ १ २}
क्रत्वा महा अनुष्वधं भीम आ बावृते शवः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}
क्षिय ऋष्व उपाकयोर्निशिप्री हरिवान् दधे हस्तयावज्जगायसम् ॥५॥

अथ षष्ठ्याः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पंक्तिश्छन्दः ॥

^{३ १ २ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
स वातं वृषणं रथमधितिष्ठाति गोविदम् ।

^{१ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
यः पात्रं हारियोजनं पुर्यामिन्द्रा चिषेताति योजान्मिन्द्र ते हरी ॥ ६ ॥

श्री वीप्सियुक्त उपा ! हमें शव शक्तिधनार्थं जगाह्ये ।

जैसे हमें पहले जगाया त्यों प्रबोध दिलाह्ये ॥

हे श्रेष्ठ उत्पत्ति वाली ! हे प्रिय सत्य संयुक्त देवता !

श्री वय्यसुत मुझ सत्यभवपर अनुग्रह कर देवता ॥ ३ ॥ ४२१

हे सोम ! महिमा धरो सो सोमान्न से संतुष्ट हो ।

हमारे हृष्य आत्मा विवेकहिं सर्वसुख पहुंचाह्यो ॥

और स्तोता तिहारें सखिभाव में रमता रहै ।

जैसे कि गायें घास में अतिप्रेम से विचरा करें ॥ ४ ॥ ४२२ ॥

श्री बुद्धि से सम्पन्न अरु रिपुवर्ग को भय देवने ।

अस इन्द्र पीकर सोम निजमल को प्रकट दिखलावते ॥

पुनि दर्शनीय तथा सुनासावन्त हयगण साथ ले ।

श्री सम्पदार्थ स्तकीय कर में लोह चक्रहिं धारते ॥ ५ ॥ ४२३ ॥

सह मित्ररूपी इन्द्र वाञ्छित-सिद्धि को बरसावता ।

श्रीगर्भों का दातार उत्तम रथ उपरि चढ़ जावता ॥

हे इन्द्र ! जो (रथ) धानादि पूरित सोमपात्र जनावता ।

निज घोडकों को शीघ्र उत्तम रथ संग तुम जुड़वावता ॥ ६ ॥ ४२४

(१३५)

अथ सप्तम्याः वसुश्रुत ऋषिः । अग्निदेवता । पङ्क्तिरछन्दः ॥

^{३ १२ २२ ३ २७ ३२ १२ २२ २२ ३१ २}
अग्निं सं मन्ये यो वसुश्रुतं यं यन्ति धेनवः ।

^{३ १२ ३ २७ ३ १ ३ २ ३ १२ ३ २ ३ १२}
अस्तमर्वन्त आशवोस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आभर ॥ ७ ॥ ४२५ ॥

अथाऽष्टम्याः अंहोसुग्वामदेव्य ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । उपरिष्ठाद्
वृहती छन्दः ॥

^{२७ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २}
न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम् ।

^{३ १२ १ २ ३ २ ३ १२ २२ २ ३ १ २ ३ १२}
सजोपसो यमयेमा मित्रो नयति वरुणो अतिद्विषः ॥ ८ ॥ ४२६ ॥

इत्यष्टमः खण्डः ।

अथ नवमः खण्डः ॥

—:०:—

तत्र प्रथमाया ऋणत्रसदस्यूसहितावृषी । पवमानो देवता । द्विपदा
पङ्क्तिरछन्दः ॥

^{२ ३ २ १ २ ३ १ २ ३ १२ २२}
परि मधन्वेन्द्राय सोमस्वादुर्मिनाय पूष्णे भगाय ॥ १ ॥ ४२७ ॥

जो भक्तों का वित्तसदन सम सब का आश्रय ।

जिस अग्निहिं श्रीगर्वे-वृत्त करने को जावत ॥ -

आश्रम सम जिस सुरहिं तुरग द्रुतगामी यावत ।

जिस आधार को नित्य हृद्ययुत यष्टा ध्यावत ॥

ऐसे उस श्री अग्नि की विरुदावलि में गावता ।

हम स्तोताजन को वहै अन्नदान दिखवावना ॥ ७ ॥ ४२५ ॥

श्री सुरगणो ! सन्तुष्ट सम श्री मित्र वरुण-तथार्थमा ।

जिसको रिपुन के चक्र सेति निकसि उन्नति देवते ॥

उस मनुज को नहिं पाप अरु जो पाप के फल दुःख हैं ।

वे सर्वथा नहिं ध्यापते अर्थात् कभि न सतात हैं ॥ ८ ॥ ४२६ ॥

इति अष्टम खण्ड समाप्त ॥

अथ नवम खण्ड आरम्भ ॥

हे सोम ! सीठे रस सहित तुम इन्द्र के हित के लिये ।

श्री मित्रदेव निमित्त अरु श्रीयुक्त पूषा के लिये ॥

पुनि भगाभिध जो देव उसको तुष्टि के देने लिये ।

सम्पूर्ण पात्रों के विषे भलिभाँति सेती वरसिये ॥ १ ॥ ४२७ ॥

अथ द्वितीयाया ऋषि देवते उक्ते । पिपीलिका नध्या त्रिपदाऽनुष्टुप् छन्दः ॥

पर्युपु मधन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः ।
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ २ ॥ ४२८ ॥

अथ तृतीयाया ऋषि देवते उक्ते । त्रिपदा पंक्तिश्छन्दः ॥

पवस्व सोम महान्तसमुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥ ३ ॥ ४२९ ॥

अथ चतुर्थ्या ऋष्याद्य उक्ताः ।

पवस्व सोम मह दत्तायाश्वा न निज्जो पाजी धनाय ॥ ४ ॥ ४३० ॥

हे सोम ! उत्तम भाँति हमको अन्न देने के लिये ।
सब घोर से पात्रावली के बीच पूरित हूजिये ॥
ज्ञायायुत तू शत्रुओं पर चढ़ाई करणावना ।
हमारे ऋणों का नाश कर रिपुदलन हित चढ़ि धावना ॥ २ ॥ ४२८ ॥

हे सोम ! गौरवयुक्त श्रीरसरूप से वहते रहो ।
सम्पूर्ण जग की लालना व पालना करते रहो ॥
श्रीयुत सुरों के वृन्द के जो धाम नाना भाँति दे ।
तिन्ह घोर पात्रावली को परिपूर्ण तुम कर दीजिये ॥ ३ ॥ ४२९ ॥

हे सोम ! घोड़े के सरिख जल से विशद होता हुआ ।
श्रीयुक्त भारी वेग को तू भलीविधि धरता हुआ ॥
अत्यन्त बल औ धनों की संप्राप्ति को करने लिये ।
श्री यज्ञ में पात्रावली तिन्ह को प्रपूरित कीजिये ॥ ४ ॥ ४३० ॥

॥ श्रुतियों में जहाँ २ शत्रुओं के नाश के लिये देवताओं से प्रार्थना की गई है वहाँ २ दोनों प्रकार के शत्रुओं से प्रयोजन है अर्थात् आभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तर शत्रु कामादि जो मन के भीतर निवास करते हैं और बाह्य शत्रु जो वेदविरुद्ध पथ पर चल धृति क्षमादि धर्मों का विनाश करके यजमान के शुभकर्म में बाधा पहुँचाना चाहता है ।

अथ पंचन्याः ऋष्यादय उक्ताः ।

इन्दुः पविष्ट चार्गदायापामुपस्थं क्विर्धनाय ॥ ५ ॥ ४३१ ॥

अथ षष्ठ्या ऋषिदेवते उक्ते । पिपीलिका मध्या त्रिपदाऽनुष्टुप्छन्दः ।

अनु हित्वा सुतं सोम मद्रामसि मह समर्यराज्ये ।

वाजां आभि पवमानं प्रगाहसे ॥ ६ ॥ ४३२ ॥

अथ सप्तम्या वसिष्ठ ऋषिः । सरुतो देवता । द्विपदा पंक्तिश्छन्दः ।

क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वधाः ॥ ७ ॥ ४३३ ॥

कल्याण का दाता तथा श्री बुद्धि को उपजावना ।

अस सोमजल के स्थान गगन तथा पवित्रे में रहा ॥

श्रीयुक्त भजने योग्य ऐसे वित्त को पाने लिये ।

औ हर्ष को उपजावने पात्रालि में वरसत रहै ॥ ५ ॥ ४३१ ॥

हे सोम ! सम्पादित तुझे क्रम सेति स्तुति करते रहें ।

श्रीशुद्धि से सम्पन्न ! वह तू मनुजगण सँग में लिये ॥

श्रीयुक्त विस्तृत राज्य की भलिभाँति रक्षा करन को ।

रिपुजनों के समुदाय पै आक्रमण करके जात हो ॥ ६ ॥ ४३२ ॥

* श्री कान्ति से सम्पन्न अस प्रभुताइ को धारण करें ।

समसदन वाले तथा मानव-जाति का हित आचरें ॥

औ श्रेष्ठ घोटक वाले ऐसे कौन होते रुद्र के ।

श्री मंत्रद्रष्टा ऋषि बहुत आश्चर्य में हो पूछते ॥ ७ ॥ ४३३ ॥

✽ उपरोक्त श्रुति में जो गो शब्द आया है वह अनेकार्थ का द्योतक होकर संसार को सब प्रकार से लाभ पहुंचाने वाला माना गया है । जहां गो नाम वाणी का है वहां स्तुति द्वारा पवित्र करना यह अर्थ निकलता है । सूर्य की किरणें जल को खेंच कर कल्याण करती ही हैं । गायें दुग्ध तथा यज्ञादि से जगत् का पोषण करने वाली हैं ।

(१३८)

अथाऽष्टम्या वामदक्ष ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिपदा पदपंक्तिश्छन्दः

^{३ २३ ३ ३ २४} अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं हृदिस्पृशम् ।

^{३ १ २ ३ १२} ऋध्यामा त ओहेः ॥ ८ ॥ ४३४ ॥

अथ नवम्या वामदक्ष ऋषिः । वाजिनो देवता । पुर उष्णिक् छन्दः

^{३ १२ ३ १२ १ ३ १२ १२ ३ १ २ ३ २ ३ २} आविर्मय्या आवाजं वाजिनो अग्नन् देवस्य सवितुः सवम् ।

^{३ १ २ ३ १२} स्वर्गं अर्वन्तो जयत ॥ ९ ॥ ४३५ ॥

अथ दशम्या ऐश्वरयोर्धिष्ण्या ऋषयः । पथमानो देवता । द्विपद
पंक्तिश्छन्दः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २} पवस्व सोम, द्युम्नी सुषारीमहा अवीनामनुपूर्व्यः ॥ १० ॥ ४३६ ॥

इति नवमः खण्डः ॥

हे अग्नि ! हम सब आज सुर सुखदाइ स्तोत्रसमूह से ।

उस ख्याति-संयुत देव तुम्हको भली विधि से पूजते ॥

जो अश्वसम हवि को लिवाते कार्य सब बनावते ।

तुम प्रार्थना के योग्य अरु धित को बहुत ही भावते ॥ ८ ॥ ४३४ ॥

श्रीनरों का हितकारि, भास्वर, हव्यप्रापक देवता ।

श्री सर्वप्रेरक देव के संपाद्य सोमहि पा चुके ॥

इस हेतु श्रीयजमान लोगो ! स्वर्गनामक लोक को ।

औ घोटकों के वृन्द को भलिभाँति भेती जीतियो ॥ ९ ॥ ४३५ ॥

हे सोम ! अन्न समेत अथवा यशस्वीपन धारता ।

अत्यन्त शोभायुक्त ऐसी धार को धरता हुआ ॥

प्राचीनता-संयुक्त और महत्व को पाता हुआ ।

तू भेद की रोसावली से नियम द्वारा प्रकटना ॥ १० ॥ ४३६ ॥

इति नवम खण्ड ॥

(११६)

अथ दशमः खण्डः ॥

तत्र प्रथमाया ऋषिर्नोपलभ्यते । हन्द्रो देवता । द्विपदा पंक्तिरछन्दः ।

^{१ २} विश्वतोदापन्दिश्वतां न आभर यं त्वा शविष्टुषीमहे ॥ १ ॥ ४३७ ॥

अथ द्वितीयाया ऋष्यादिकमुक्तवत् ।

^{३ २ २ २ ४} एष ब्रह्मा य ष्ट्विव्य हन्द्रो नाम श्रुता गृथे ॥ २ ॥ ४३८ ॥

अथ तृतीयाया असदस्युर्ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} ब्रह्माण इन्द्रं मह्यन्तो अर्धैरधैयन्नहय हन्तवा च ॥ ३ ॥ ४३९ ॥

अथ चतुर्थ्या ऋषिर्नोपलभ्यते । छन्दोदेवते प्रोक्ते ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २} अनयस्ते रथमन्वाय तल्लुस्तपष्टा वज्रं पुरुहूतं घुमन्तम् ॥ ४ ॥ ४४० ॥

अथ दशम का आरम्भ ।

सम ओर से रिपुविनाशक ! ओं भक्त को धन देवने ।

अस हन्द्र ! तुम सब भाँति हम को अभिलपित फल दीजिये ॥

अत्यन्त बलसम्पन्न ऐसे आप के सामोप्य में ।

हम सब इकट्ठे होय कर के याचना करते रहें ॥ १ ॥ ४३७ ॥

श्री पसंतादिक ऋतुन में प्राकट्य को जा पावता ।

सब जनत् में विख्यात ऐसा हन्द्रसंज्ञक देवता ॥

स्तोताजनों के मनोरथ की वृद्धि का कर्तार है ।

उस देवता की भलाविधि में गुणावलि को गात हूँ ॥ २ ॥ ४३८ ॥

जो वृत्रनामक असुर है उस को विनाशन के लिये ।

श्री प्रशंसा के योग्य ऐसे २ स्तोत्र के समुदाय से ॥

विधिसहित पूजन करत अगणित ब्राह्मणों के वर्ग जे ।

श्रीयुक्त हन्द्राभिध सुरेनाहिं तुष्टियुत करते रहें ॥ ३ ॥ ४३९ ॥

हे हन्द्र ! मानववर्ग, ओं श्री देवता के वृन्द जे ।

सेरे तुरंगों के लिथे रथ को रचित करते हुए ॥

हे असंख्यों के पूज्य ! श्रीयुक्त विश्वकर्मा देवता ।

श्री सहित वज्रायुधाहिं भतिष्ठुत्तियुक्त कर देता भया ॥ ४ ॥ ४४० ॥

अथ पंचम्या ऋष्यादयः प्रोक्तवत् ।

^{२ ३२ ३१ २ ३२ ३ १ २२ ३ १ २ ३ २ २ ३ २}
शं पद्मं मघ रयीषियो न काममत्रतां हिनोति न स्पृशद्रयिम् ॥ ५ ॥ ४

अथ षष्ठ्या विश्वेदेवाः देवताः । ऋषिरुच्छन्दश्चोक्तवत् ।

^{२ ३ २३ १ २ १ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा अरेपसः ॥ ६ ॥ ४४२ ।

अथ सप्तम्याः सप्तपात ऋषिः । उषा देवता । द्विपदा पंक्तिरुच्छन्द

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २}
आर्याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्धन्ति यदूधभिः ॥ ७ ॥ ४४३

श्री हव्य अथवा वित्त को भर्पण करत जो नर रहें ।
वे सुख तथैव सुशान्तिदायक स्थान औ धन को लहें ॥
जो पुरुष इन्द्र निमित्त अव्रत होय दान न देत है ।
वह वांछितार्थ कि सफलता का स्पर्श भी नहिं ले सके ॥ ५ ॥ ४
श्रीयुक्त इन्द्राभिध सुरेश्वर की शरण जो जावते ।
वे सर्वदा निर्दोष जगपोषिणी शक्तिहिं पावते ॥
पुनि दिव्यगुणसम्पन्न होकर देव पदवी धारते ।
सघ भाँति के जो पाप तिन्ह से मुक्त होय सुहावते ॥ ६ ॥ ४४
हे उपादेवी ! चाहने की योग्यता को धारता ।
अस तेज को भँग लेय करके आगमन कर देवना ॥
श्री उषा की वाहन गवें रथ की सुपेवा धारतीं ।
जो गवें भक्तिविस्तीर्णतायुत बड़े एनहिं राखतीं ॥ ७ ॥ ४४३ ॥

※ वाचो गोत्वेन वर्णनं शतपथे ॥ १४ । ६ । १२ ॥

“वाचं धेनुमुपासीत । तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्
स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च । ह
मनुष्याः । स्वधाकारं पितरस्तस्या प्राण ऋषभो मनोवत्स इति ।

अर्थात् शतपथ ब्राह्मण १४ । ६ । १२ । १ में वाणी को गोरूप
प्रकार वर्णन किया है कि वाणीरूप धेनु की उपासना करो । उसके ४ थ
१ स्वाहाकार । २ वषट्कार । ३ हन्तकार और ४ स्वधाकार । उसके दो थ
हाकार और वषट्कार को देवता पीते हैं । तथा हन्तकार को मनुष्य और स्व
को पितर । उसका प्राण बैल है और मन बछड़ा है ।

(१४१)

अथाष्टम्या ऋषिर्नोपलभ्यते । इन्द्रो देवता । द्विपदा पंक्तिश्छन्दः ।

१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
उष भक्त मधुमति क्षियन्तः पुष्येष रषि धीमहे त इन्द्र ॥ ८ ॥ ४४४ ॥

अथ नवम्या ऋष्यादथ उक्तवत् ।

१ २ ३ २ ३ १ ३ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २
अचन्त्यर्कं करतः स्वर्का अस्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः ॥ ९ ॥ ४४५ ॥

अथ दशम्या ऋष्यादथ उक्तवद्बोध्याः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ २
प्रब इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विमाय गायं गायत यं जुजावत् ॥ १० ॥ ४४६ ॥

इति दशमः खण्डः ॥

हे इन्द्र ! सीढे रखसहित श्रीनृपति से निर्मित हुए ।
श्रीउदुम्बर के चमस में तेरे निकट में स्थित हुए ॥
हम सभी याज्ञिक लोग श्री यज्ञान को परसत रहे ।
औ सभी मिलकर तुम्हारे शुभ ध्यान को भी करत हैं ॥ ८ ॥ ४४४ ॥

श्री शुभ्र अन्न समेत अथवा दिव्य स्तुति के साथ जे ।
श्रीमरुसंज्ञक देव इन्द्रहिं स्तोत्र द्वारा पूजते ॥
श्री सदा तरुण प्रसिद्धियुत वह इन्द्रसंज्ञक देवता ।
उनके अमित्रसमूह को आक्रमण करके मारता ॥ ९ ॥ ४४५ ॥

हे ब्राह्मणो ! जो वृत्रवध में अधिकता को धारता ।
अस दिव्यगुण-सम्पन्न श्रीयुत इन्द्रसंज्ञक देवता ॥
उसके लिये वैसे मनोहर स्तोत्र को अति गावना ।
जिस स्तोत्र को वह तुष्ट होकर भलीविधि अपनावता ॥ १० ॥ ४४६ ॥

इति दशम खण्डः ।

अथैकादशः खण्डः ॥

तत्र प्रथमाया ऋषिर्नोपलभ्यते । अग्निर्देवता । द्विपदा छन्दः

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
अचेत्यग्निश्चिकित्तिर्व्यदाङ्ग सुमद्रथः ॥ १ ॥ ४४७ ॥

अथ द्वितीयायाः बन्धुर्ऋषिः । अग्निर्देवता । द्विपदा छन्दः

^{२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ १ २ ३ २}
अग्ने त्वं नो अस्तम उत प्राप्ता शिवां शुवो बरुथ्यः ॥ २ ॥ ४४८ ॥

अथ तृतीयाया ऋष्यादय उक्ताः ।

^{२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
भर्गो न चित्रा अग्निर्ऋषीणां दधाति रत्नम् ॥ ३ ॥ ४४९ ॥

अथ चतुर्थ्यां हन्द्रो देवता । ऋषिच्छन्दसी प्रोक्ते ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ ३ २}
विश्वस्य मस्तोभ पुरो वा सन्ददि वेद नूनम् ॥ ४ ॥ ४५० ॥

अथ एकादश खण्ड का आरम्भ ॥

श्री हव्य को पहुंचान वाला बहुत बुद्धि समेत जो ।

श्री श्रेष्ठ हविसमुदाय तिन्ह की ऋद्धियों से युक्त हो ॥

श्री रथ सरिस पहुंचावता अस अग्निसंज्ञक देवता ।

श्री हविसमर्पक यज्ञकर्त्ता पुरुष को पहुंचानता ॥ १ ॥ ४४७ ॥

हे अग्नि ! नाना भौति की सेवादि के तुम योग्य हो ।

हम सभी याज्ञिकवर्ग तिन्ह के भतिनिकट स्थिति पात हो ॥

औं हमारे संत्राण करनेवार देवत आप हो ।

सम्पूर्ण सुख सम्पत्तियों के देनवारे हूजियो ॥ २ ॥ ४४८ ॥

श्री पूज्य के समुदाय में रवि की सरिसता धारता ।

अद्भुत गुणों से युक्त वा पूजाई पद को पावता ॥

अस अग्निसंज्ञक देवता श्री याज्ञिकों के वर्ग को ।

पावित्र्य से सन्पन्न धन वा रत्न आदिक देवतो ॥ ३ ॥ ४४९ ॥

सब शत्रुओं के वृन्द को विध्वस्त करके डालता ।

और इस मज्ज-मध्य निश्चय पूर्व में स्थित होरहा ॥

इन गुणों से सम्पन्न ऐसा अग्निसंज्ञक देवता ।

श्री ऋत्विजों के वृन्द से भलिभौति स्तुत होजावता ॥ ४ ॥ ४५० ॥

(१४३)

अथ पंचम्याः संवर्त्त ऋषिः । उषा देवता । छिपदा छन्दः ।

^{३ २४ ३ २} उषा अप स्वमुष्टमः ^{३ २ ३} संवर्त्तयति ^{१ २} वर्तनिं ^{३ १ २ ३ १ २} लुजातता ॥ ५ ॥ ४५१ ॥

अथ षष्ठ्या भौवन आत्थ ऋषिः । इन्द्रो देवता । छिपदा छन्दः ।

^{३ २४} इमा नु ^{३ १ २} कं भुवना ^{३ १ २ ३} सीषधेन्द्रश्च ^{१ २} विश्वे ^{३ २} च देवाः ॥ ६ ॥ ४५२ ॥

अथ सप्तम्याः कचवणैलूच ऋषिः । इन्द्रो देवता । छिपदा
गायत्री छन्दः ॥

^{२ ३ २ ३ १ २ ३ ३} वि लुतयो यथापथा ^{३ १ २ ४ २ ३ १ २} इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ ७ ॥ ४५३ ॥

अथाऽष्टम्या भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । छिपदा पंक्तिरछन्दः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २} अया वाजं देवहितं सनेष ^{३ १ २ ३ १ २} मदेम शतहिषाः ^{३ १ २} सुवीराः ॥ ८ ॥ ४५४ ॥

यह उषा प्रातःकाल की प्रकटानवाली देवता ।

निज वहन रजनी के तिमिर को तेज से सरकावती ॥

पुनि श्रेष्ठता-सम्पन्न ऐसा दीप्तियुक्त प्रकाश है ।

उस प्रभा-पुंजहिं दिव्य रथ के उपरि पहुँचादेते है ॥ ५ ॥ ४५१ ॥

ये लोक जो संसार भर के देखने में आवते ।

उन सबों को हम त्वरा करते स्ववश में ले आवते ॥

पुनि इन्द्र और समस्त देवों के विविध समुदाय हैं ।

वे स्तोत्र से सन्तुष्ट मम इस कार्य को वननाय हैं ॥ ६ ॥ ४५२ ॥

इन्द्र ! आप के पास से विविध भ्राँति के दान ।

घंटापथ से लुद्र पथ निकसत त्यों मिल जायँ ॥ ७ ॥ ४५३ ॥

इस स्तोत्र से श्रीयुक्त सुरपति देव से दीन्हें गये ।

श्री अन्नसम्बन्धी पदार्थ तिन्हें सभी हम भोगलें ॥

पुनि दिव्य पुत्रों के सहित सैकड़न ऋतु हेमन्त को ।

श्री याज्ञिकों के वृन्द भोगत रहें अति सन्तुष्ट हो ॥ ८ ॥ ४५४ ॥

(१४४)

अथ नवम्या आत्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । द्विपदा पङ्क्तिरछन्दः ।
३ २ ३ १२ २२ ३२ ३ १२ ३ १२ ३ १ २
ऊर्जा मित्रो वरुणाः पिन्वतेदाः पौवरीमिपं कृणुही न इन्द्र ॥ ९ ॥ ४५५ ॥
अथ दशम्या बलिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवताः । एकपदा गायत्री छन्दः ।
२ २
इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १० ॥ ४५६ ॥

इत्येकादशः खण्डः ।

अथ द्वादशः खण्डः ॥

—10:—

तत्र प्रथमाद्याः गृत्समद् ऋषिः । इन्द्रो देवताः । अष्टिरछन्दः ।
१ २ २ १२ २२ ३ २ ३ १२ २२ ३ १ २ २ १ २
त्रिकट्टुकेषु मणियो यवाशिरं तुविशुष्मस्तुम्पत्सोममपिवाद्दिष्णुना सुतं यथा-
३ २ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ २ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २
षशम् । स ई ममाद् महिकर्म कर्तव्यं महागुरुं सैनं सश्वदेवो देवत्वं सत्य इन्दुः
३ १ २ १
सत्यमिन्द्रम् ॥ १ ॥ ४५७ ॥

हे इन्द्र श्रीयुत मित्र औ श्री वरुण-संज्ञक देवता ।
तुम सब हमें बल के सहित अन्नर्द्धियों को देवता ॥
पुनि हमारा जो अन्न चसको अधिकतायुत कीजियो ।
अर्थात् हमारे वर्ग को सम्पत्ति अन्न फि दीजियो ॥ ९ ॥ ४५५ ॥
इन्द्रदेव सब सृष्टि का, ईश्वर माना जाय ।
इसी हेतु प्राधान्य से, इन्द्र कि है अधिकाय ॥ १० ॥ ४५६ ॥
एकादश खण्ड समाप्त ॥

अथ द्वादश खण्ड का आरम्भ ।

पूजनीय भतिवली तृप्ति लहता श्री सुरपति ।
ज्योति तथा गौ और आयुसंज्ञक दिवसों विच ॥
सम्पादित यवसक्तु-युक्त सोम को विष्णु-संग ।
ज्यों प्रथमेच्छा त्यों पिया हुअ वहै सो मास ॥
कर्म करन श्री वितत यह देवताहि सुख देवतो ।
सुरस फान्त वह सोमरस इच्छुक इस इन्द्रहि मिलो ॥ १ ॥ ४५७ ॥

अथ द्वितीयायाः गौराङ्गिरस्य ऋषिः । सूर्यो देवता । जगती छन्दः ।

३३ ३२३ १२ ३१ २३ २ ३२३ २ १२ ३२ ३ १ २३२ ३
अथ ॐ सहस्रमानवो दृशः कवीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्म । ब्रह्मः सतीचीरुपसः
१ २ ३२३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
स मरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमन्ताश्चता गोः ॥ २ ॥ ४५८ ॥

अथ तृतीयायाः परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । अत्याष्टिशुद्धः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
एन्द्र चाद्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीष सत्पतिरस्ता राजेब
१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
सत्पतिः । इवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वापुत्रासो न पितरं वाजसातये महिष्ठं
१ २
वाजसातये ॥ ३ ॥ ४५९ ॥

श्री सहस्रजनवन्त दिव्य मतिमन्त पूज्यवर !
घाता ज्योतिस्वरूप यहै रवि शुद्ध रंगमय ॥
तिमिर-स्वरूपी पाप-पुंज से सतत अलग रहि ।
एकचित्त इन उषा वृन्द को भलिविधि प्रेरव ॥
पुनि दिन में द्युति धारने हिमकर आदिक देव जे ।
श्री भास्करं के तेज से कान्तिहीन हो जावते ॥ २ ॥ ४५८ ॥

इन्द्र ! दूर सुरलोक सेति शुचि हंम पै आइय ।
ज्यों यह पावक तथा सोम-रस प्राप्त हुए ग्रह ॥
ज्यों यष्टा ऋत्विगजन रक्षक मख में आवत ।
ज्यों उडुपति नक्षत्रपाल निजधाम सिधावत ॥
दिव्यसहित तोय सोमरस सिद्ध हुए बुलवात हैं ।
पुत्र वलार्थी तात को त्यों जयार्थ तुभको रटें ॥ ३ ॥ ४५९ ॥

अथ चतुर्थ्या रेभा ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः
^{५२ २२ ३१ २ ३२ ३१२ २२३१२ ३ १ २ ३}
 तमिन्द्रं जोषीमि सवधानमुग्रं सत्रा दधानमपतिष्कुतथ शवाथसि
^{१ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}
 मथिष्ठो गीर्भिराच यक्षिया दवर्त राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु दर्जी ॥

अथ पंचम्याः परुच्छेप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । अत्यष्टिरछ
^{२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १२ ३ १ २}
 अस्तु श्रीपट् पुरो अग्नि धिया दध आनु त्यच्छ्रद्धां दिव्यं वृणीमह
^{२ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १२}
 वृणीमहे । यद्द क्र्वाणाविवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे । अथ प्र नूनमु
^{३ १ २ ३ ३ ३ ३ २ ३ १ २}
 धीतयो देवा अच्छा न धीतयः ॥ ५ ॥ ४६१ ॥

धनी उग्र ऋत तथा अनेकनं बल को धारत ।
 अप्रवृष्य सस इन्द्रहिं पुनि पुनि हम बुलवावत ॥
 परमपूज्य यज्ञार्ह इन्द्रसंज्ञक श्रीसुरवर ।
 स्तुतियो सेती यज्ञ वीच हमरे सम्मुख हुआ ॥
 पुनि वज्रायुध इन्द्र श्री धन सम्पत्ति दिलावने ।
 सफल सुमार्ग समूह का योग हमार बनायदे ॥ ४ ॥ ४६० ॥
 इन्द्र ! उत्तरी वेदी में अग्निहिं प्रणयन से ।
 धारचुका तिहिं दिव्य बली जो द्रुत भल पूजहिं ॥
 इन्द्र वायु को गावें जो नवधनी यष्टहित ।
 भूमि नाभि समस्थल में मिलि फलप्रद हो जावत ॥
 इस स्तुति का होवै श्रवण पुनि हमरे स्तुतिकृत्य सब ।
 तुम्हें मिलै औ मानलो हमरे कर्म मिले सुरन को ५ ॥ ४६१ ॥

याजकों की शाला से पश्चिमी भाग में " प्राचीनवंश" नाम्नी यज्ञ दक्षिण दिशा में धनुषाकार एक कुण्ड होता है, वहां का अग्नि "दक्षिणाग्नि" है । उत्तर की ओर कुण्ड नहीं होता । पश्चिम में गोलाकार कुण्ड होता का अग्नि "गार्हपत्य" कहाता है । पूर्व दिशा में चौखूटा कुण्ड होता है अग्नि "आहवनीय" कहाता है और पूर्व दिशा में ही पूर्वोक्त कुण्ड से अ अन्य कुण्ड भी होता है उसे उत्तर वेदी या परली वेदी कहते हैं । उसे की भूमि नाभि कहाती है उसमें अध्वर्यु और प्रतीहार के कर्म होते हैं । होता का होमेव अग्निसम्बन्ध कुल्ल नहीं होता । ऐसे "पुरः" शब्द से पूर्वीय चौखूटी वेदी से प्रयोजन है ।

(१४८)

अथ नवम्याः परुच्छेष ऋषिः । अग्निदेवता । अत्यष्टिरछन्दः ॥

^{३ १२ २२} अग्नि होतां ^{३ १ २ ३ १ २} गन्ध दास्वन्तं ^{३ १ २ ३ १ २} दत्तोः ^{३ १ २ ३ १ २} सुहृत् ^{३ १ २ ३ १ २} सहस्रो ^{३ १ २ ३ १ २} जातवेदसं ^{३ १ २ ३ १ २} विमं न ^{३ १ २ ३ १ २} जातवे-
^{३ १ २ ३ १ २} दसम् । ^{३ १ २ ३ १ २} य ऊर्ध्वया ^{३ १ २ ३ १ २} स्वधरो ^{३ १ २ ३ १ २} देवो ^{३ १ २ ३ १ २} दवाच्या ^{३ १ २ ३ १ २} कृषा ^{३ १ २ ३ १ २} घृतस्य ^{३ १ २ ३ १ २} विभ्राष्टिमनुशुक्रगो-
^{३ १ २ ३ १ २} क्षिप ^{३ १ २ ३ १ २} आजुषा न ^{३ १ २ ३ १ २} स्य ^{३ १ २ ३ १ २} सर्पिषः ॥ ९ ॥ ४६५ ॥

अथ दशम्या गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । अतिज्ञाक्षरीछन्दः ।

^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} तप ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} तयं ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} नयंनृतोप ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} इन्द्र ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} प्रथमं ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} पूष्यं ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} दिवि ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} प्रदाच्यकृतम् । ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} यो देवस्य
^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} शानसा ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} मारिणा ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} असुरिण्यजपः । ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} सुयो ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} विश्वस्य ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} देवमाजसा ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} विदेदूर्जं ^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} शतक्रतु-
^{२ ३ १२ १२ ३ १ २} विददिषम् ॥ १० ॥ ४६६ ॥

अग्नि निमंत्रण देनवार अति धन को देवत ।

सर्व प्रशंसित बल सुत बुध ब्राह्मण के सदृश ॥

परम-मान्य है उसको मैं शान् भलि विधियुत ।

जो क्रतुरक्षक कृपा जासु शुचि सुरजन-भापित ॥

श्री अमरों प्रति हव्य को पहुंचावन की चाह से ।

शुद्ध प्रकाशित होमघृत को हुत होते लेवते ॥ ९ ॥ ४६५ ॥

सर्वप्रेरक इन्द्र ! मनुष्यों का हितकारक ।

पूर्व पुरातन तुन प्रासिद्ध शुचि कर्म स्वर्ग विच ॥

श्रीयुत सुरसमुदाय सेति भलि भांति प्रशंसित ।

विजयार्थी राजस प्राणों को बल करि नासिय ॥

असुररुद्ध जल प्रेरिकर व्याप्त तिमिर दनुजादि को ।

फल से मारो तथा श्री सुरपति शौर्यरु अजलो ॥ १० ॥ ४६६ ॥

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

असाप्तं चन्द्रं पर्व काण्डं वा ॥

अथ तृतीय चतुर्थ अध्याय का अशुद्ध शुद्ध का पत्र ।

दृ०	पं०	अ०	शु०	पृ०	पं०	अ०	शु०
७६	३	रपु	रेपु ।	१००	३	पर्वत	पर्वतं
७६	३	तष्ट	तष्टे	१०१	५	इन्द्र	इन्द्रं
७७	२१	सिद्ध	सिद्धि	१०२	६	शिन	शिने
७६	३	माः	न्याः	१०२	९	छंदः	त्रिष्टुप्
८०	११	त्राबाल	त्रालि	१०३	९	गूढ	गूढे
८१	१०	वरुण	वरुणे	१०४	२	मंत	मंतं
८१	१०	छन्ध	छन्धं	१०६	२	रथ्या	रथ्यां
८२	६	वृधा	वृधो	१०७	६	ताम्	ता
८४	३	वात	वति ।	"	२४	हुआ	हुओ ।
८४	५	क्रसि	क्रासि ।	१०८	३	क्षय	क्षये
८५	८	सोम	लीम	"	६	भून्	भून्य
८७	७	रथ	रथे	११२	१४	नता	नेता
८८	२६	लाक	लोक	११५	५	स्य	स्यं
८९	३	अस्मा	अस्यां	"	२४	प्राण	प्राण हेतु
८९	६	वन्	वन्	१२६	८	पिवास	पिवा
९०	६	णत	णते	१२७	५	व	वः
९१	१२	श्लो	श्लो	१२८	२	आय	आया
९३	७	मिन्द्रा	इन्द्रा	"	१९	तुम्हारी	तुम्हारि
९४	६	दुघ	दुघां हुवे	१२६	२२	किस्ती	किसि
९४	६	द्रया	द्रयो	१३४	२	नहे	महे
९४	६	द्रया	द्रयो	"	३	वाय्य	वाय्ये
९४	१२	क	क	१३७	१०	वाले	वाल
९४	१३	पुरा	पुरो	१४४	६	कर्तव	कर्तवे
९५	७	ऋषिः	ऋषयः	१४४	२२	पिया	पीया
९६	१५	सुन	सुन के	१४४	२२	सोमास	सोमरस
९६	१५	हमरे	हमारे	१४५	२	अयं	अयं
९७	३	यथाः	यथा ।	१४५	६	महिष्ठं	महिष्ठं
९७	३	यथाः	यथा ।	१४६	७	धीतया	धीतयो

॥ ३० नमः शिवाय ॥

शुभ सूचना ॥

जो महाशय (१२५) रु० देकर इस (सामवेद के भाषा पद्यात्मक अनुव जैसे) पवित्र कार्य की सहायता करेंगे उनकी सेवा में ५ पुस्तकें सब ग्रंथ के सम होने पर भेट की जावेंगी, और उनका नाम टाइटल पेज पर उसी अध्याय के प्रकाशक के स्थान पर दिया जायेगा । आशा है कि धर्मप्रेमी महाशय इस कार्य सहायता में योग देकर अखण्ड पुण्य सम्पादन करने का यत्न करेंगे ।

पाठक महाशयों से सविनय प्रार्थना है कि वे वेदपाठ के मूल में अशुद्धि को पहले सुधार कर फिर अवलोकन करना आरंभ करें ।

शिवदत्त त्रिपाठी,

इस बात को तो सब महानुभाव भली भाँति से जानते ही हैं कि षट् द में न्यायदर्शन बड़े ही महत्व का विषय है । इसके आचार्य महर्षि गौतम हैं । के सूत्रों पर श्रीवात्स्यायन मुनि ने जो भाष्य रचा है उसको सरलरीति से समझाने लिये गवर्नमेन्ट कालेज के भूतपूर्व संस्कृत प्रोफेसर पूज्यपाद श्रीमान् पण्डित शालमा शास्त्री ने भाषानुवाद सहित छपवाकर उसका नाम न्यायतत्त्वबोधिनी रखदिया जिन महाशयों को लेना हो वे निम्नलिखित ठिकाने से मँगवें । मूल्य १) रु० एक ।

पण्डित ब्रह्मदत्त मिश्र,

बी० ए०,

टीचर गवर्नमेन्ट हाईस्कूल, अजमेर,

